

कानपुर में शांति से हुई जुमे की नमाज, प्रयागराज में हुआ पथराव तो सहारनपुर में विरोध का जुलूस

मुरादाबाद में भी माहौल में तनाव होने से पहले ही मामला नियंत्रण में कर लिया गया

लखनऊ। कानपुर में तीन जून को जुमे की नमाज के बाद उपद्रव को लेकर हाई अलर्ट पर रही पुलिस के कारण वहां पर जुमे की नमाज शांति से हो गई। इसके विपरीत प्रयागराज के अटाला में जुमे की नमाज के बाद अटाला में पथराव किया गया तो सहारनपुर में विरोध जुलूस निकाला गया। मुरादाबाद में भी माहौल में तनाव होने से पहले ही मामला नियंत्रण में कर लिया गया। कानपुर में बीती तीन जून को जुमे की नमाज के बाद उपद्रव तथा हिंसा के बाद आज पुलिस सभी जिलों में बेहद मुस्तैद थी। पुलिस की चौकसी से कानपुर में नमाज शांति से हुई। बीते शुक्रवार को नमाज के बाद हुए उपद्रव को देखते हुए शहर भर की मस्जिदों के बाहर और संवेदनशील इलाकों में पुलिस की कड़ी चौकसी रही। यहाँ पर आरएफ, पीएसी और पुलिस बल के साथ लगातार गश्त कर रहे पुलिस तथा जिला प्रशासन के अधिकारियों ने कहा कि भीड़ जुटने नहीं दी। नमाज के दौरान और उसके खत्म होने के बाद उपद्रव प्रभावित इलाके में ड्रोन से साथ लगी टीमें ने गलियों के साथ छतों पर होने




वाली हलचल पर निगाह रखी गई। पुलिस बल की मौजूदगी में यतीमखाना की नानपारा मस्जिद, तुलाक महल की मोहम्मदी मस्जिद, नई सड़क की बक्सू प्यादा मस्जिद, लकड़मंडी की दिलदार खां, सलार बक्श मस्जिद, गम्भू खां हाता में बुखारी मस्जिद, जाजमऊ के अशफाबाद मस्जिद, दादा मियां मजार, कर्नलगंज के दिलदार खान, बड़ी ईदगाह बाबूपुरवा, मछरिया की जामा मस्जिद, उस्मानपुर स्थित मस्जिद, आउटर के बिल्हौर स्थित साही मस्जिद, मदारी मस्जिद, महाराजपुर के सरसौल स्थित मस्जिद में अंदर शांतिपूर्ण ढंग से

नमाज अदा हुई। पुलिस की कड़ी चौकसी के चलते नमाज खत्म होने के बाद लोग शांति से घरों को लौट गए। कानपुर में तो सब शांति से निपट गया लेकिन सहारनपुर में जुमे की नमाज के बाद लोगों ने घंटा घर तक विरोध जुलूस निकाला और फिर नारे लगाकर रोड पर जाम लगा दिया। सहारनपुर की जामा मस्जिद में हजारों की संख्या में नमाजियों ने नमाज पढ़ने के मस्जिद के बाहर नारे बाजी की। हुजूम यहाँ से निकलकर घंटा घर की ओर बढ़ा। इससे दुकानदारों में दहशत हो गई। दुकानदारों ने दुकानें बंद कर दी। हुजूम लगातार घंटा घर की ओर बढ़

रहा था। अल्लाह हू अकबर के नारे लगाते लोगों ने घंटा घर पर पहुंच कर घंटा घर चौराहे को घेर लिया। रोड जाम हो गए। वाहनों की कतार लग गई, वहीं युवकों ने तालियां बजाकर अपना विरोध करना शुरू कर दिया। सरकार का विरोध किया गया। यहाँ पर करीब आधे घंटे तक पुलिस फोर्स भी भीड़ के साथ चल रहा था। मशक्कत के बाद पुलिस फोर्स ने लोगों को घंटा घर से रवाना किया। करीब आधे घंटे तक स्थिति असामान्य रहने के बाद लोग घरों को रवाना हुए। इससे पूर्व जामा मस्जिद के बाहर भी विरोध प्रदर्शन किया गया।

दिल्ली के पांच सितारा होटल में महिला से दुष्कर्म



नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली के द्वारका स्थित एक पांच सितारा होटल में कथित रूप से एक महिला के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोप है कि होटल में महिला के साथ तीन जून को दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था। दिल्ली पुलिस ने बताया कि आरोपी और पीड़ित एक दूसरे से किसी डेटिंग एप के माध्यम से मिले थे। आरोपी हैदराबाद का रहने वाला है और फिलहाल फरार है। पुलिस उसकी खोज के लिए दबिश दे रही है। पीड़ित महिला (28) ने बताया कि वो पहले एक दुकान में काम करती थी। उसने बताया कि वह आरोपी से टिंडर पर मिली थी। इसके बाद आरोपी और उसकी मुलाकात 30 मई को एक होटल में हुई थी, जहाँ उसके साथ दुष्कर्म की घटना हुई। इसके बाद से आरोपी महिला का फोन रिसीव नहीं कर रहा है। पुलिस उसे पकड़ने की कोशिश में जुटी हुई है।

गोरखपुर में बोले जेपी नड्डा, पीएम मोदी ने दिखाया कैसी होती है जिम्मेदार सरकार

गोरखपुर। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी की सरकार बनने से पहले देश में राजनीति का संस्कार भ्रष्टाचार, वंशवाद, संप्रदायवाद और परिवारवाद पर आधारित था। मोदी ने अपने कुशल नेतृत्व में विकासवादी राजनीति कर इस संस्कार को बदल दिया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार केवल बिल्डिंग विकास को ही विकासवाद नहीं मानती। वह जनता का विकास भी चाहती है। यही एक जिम्मेदार सरकार की खूबी होती है, जो मोदी सरकार ने करके दिखाया है। नड्डा शुक्रवार को गोरखपुर के रानीडीहा में भाजपा के नए क्षेत्रीय कार्यालय और प्रदेश के साथ जिला कार्यालयों के लोकार्पण के बाद आयोजित गरीब जन कल्याण जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि केंद्र में मोदी और प्रदेश में योगी सरकार ने विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं को चलाकर और उससे पूरी जिम्मेदारी से जनता को जोड़कर जागबदेही वाली सरकार होने का प्रमाण दिया। इस क्रम में उन्होंने वह कल्याणकारी योजनाएं गिनाईं, जो केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं। नड्डा ने उन योजनाओं से जनता को मिलने




वाले लाभ का आंकड़ा भी प्रस्तुत किया। कोरोना संक्रमण काल में मोदी सरकार की नीति की सराहना करते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि जनवरी 2020 में यह महामारी देश में आई और जनवरी 2021 में सरकार के प्रयास से जनता को 2-2 वैकसीन मिल गई। ऐसा एक जिम्मेदार सरकार ही कर सकती है। उन्होंने कहा कि मोदी के नेतृत्व में केवल भारत को ही नहीं बल्कि दुनिया के 100 देशों को कोरोना का वैकसीन उपलब्ध हो पाई। इन देशों में साढ़े 18 करोड़ से अधिक वैकसीन की डोज भारत सरकार की ओर से भेजा गई। 48 देशों को तो यह वैकसीन मुफ्त दी गई। प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व का ही नतीजा है कि भारत अब मांगने

वाला नहीं बल्कि देने वाला देश बन चुका है। यूक्रेन ने फंसे भारतीयों को पूरी सुरक्षा के साथ भारत पहुंचाने की चर्चा भी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के विशेष प्रयास से ही यूक्रेन में फंसे 23 भारतीय बच्चे सुरक्षित अपने देश वापस लौट सके। यही नहीं दूसरे देशों के बच्चों ने भी भारत के तिरंगे की आड़ लेकर अपने देश पहुंचना सुनिश्चित किया। नड्डा ने बताया कि मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार को गरीबी को 10% कम करने में सफलता मिल सकी है। पहले गरीबी को प्रतिशत 22 था अब घटकर 12 रह गया है। ऐसा सरकार की गरीब कल्याण योजनाओं के चलते ही संभव हो सका है।

हत्यारे बेटे ने दी चौकाने वाली जानकारी, कहा-आठ घंटे किया मां की मौत का इंतजार

लखनऊ। पीजीआई इलाके में गेम खेलने से मना करने पर मां की हत्या करने वाले किशोर ने चौकाने वाली बात बताई है। पूछताछ में किशोर ने पुलिस को बताया कि गोली मारने के बाद उसे संदेह था कि कहीं उसकी मां जिंदा न हो। इसलिए वह बार-बार मां के कमरे में जाकर दरवाजा खोलकर देख रहा था। करीब आठ घंटे तक वह लगातार दरवाजा खोलकर यह पुष्टि करता रहा कि उसकी मां की मौत हुई या नहीं। आठ घंटे बाद उसे यकीन हुआ कि उसकी मां की मौत हो चुकी है। उधर, गुरुवार को महिला के पति ने भैया कुंड में पत्नी का अंतिम संस्कार कर दिया। इसके बाद अस्थियों को गंगा में प्रवाहित करने रवाना हो गए। किशोर की छोटी बहन सद्मे में है और नाना नानी के घर पर है। मासूम के नाना ने बताया कि बिटिया घरवादी हुई है। उसे कुछ दिन वे लोग अपने पास रखेंगे ताकि वह सद्मे से बाहर निकल सके।

किशोर के पिता अंतिम संस्कार के दौरान भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि पर भर में मेरा सब कुछ चला गया। अब बेटा का कैसे पालन करेंगे। आखिर मेरे बेटे ने ऐसा



कदम क्यों उठाया।

परिवार के लोगों ने बताया कि किशोर तीन दिन तक बहन को मां के कमरे में नहीं जाने दिया। जब भी उसकी बहन मां के बारे में पूछती थी तो वह उसे धमकी देकर चुप करा देता था। जब घर पर पुलिस और आसपास के लोग

पहुंचे और दरवाजा खुलवाया तो किशोर बहन के साथ बाहर निकला। इसके बाद किशोर की बहन को पता चला कि मां की मौत हो चुकी है। पिता को फोन पर नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा और लोगों के स्वास्थ्य से समझौता करके आपको तीन साल के कोर्स में डेढ़ साल के बाद प्रवेश दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि NEET-PG-21 में अखिल भारतीय कोटा के लिए विशेष 'स्ट्रे राउंड' काउंसिलिंग की एक सीमा होनी चाहिए। कोर्ट ने बताया था कि छात्रों को शिक्षा और लोगों के स्वास्थ्य से समझौता करने के लिए 'स्ट्रे राउंड' काउंसिलिंग कराने की अपील करने वाली याचिकाओं पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। गुरुवार को कोर्ट की ओर से पेश अतिरिक्त सालिसिटर जनरल बलबीर सिंह को कोर्ट ने याचिकाओं को प्रतिकूल मुकदमे के तौर पर नहीं लेने की सलाह दी थी। कोर्ट ने कहा था कि इसे एक प्रतिकूल मुकदमे के रूप में न लें। यह 1,400 मेडिकल सीटों का सवाल है।

अब मेडिकल कालेज की 1456 सीटों पर नहीं होगी स्पेशल काउंसिलिंग, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा और लोगों के स्वास्थ्य से समझौता करके आपको तीन साल के कोर्स में डेढ़ साल के बाद प्रवेश दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि NEET-PG-21 में अखिल भारतीय कोटा के लिए विशेष 'स्ट्रे राउंड' काउंसिलिंग की एक सीमा होनी चाहिए। कोर्ट ने बताया था कि छात्रों को शिक्षा और लोगों के स्वास्थ्य से समझौता करने के लिए 'स्ट्रे राउंड' काउंसिलिंग कराने की अपील करने वाली याचिकाओं पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। गुरुवार को कोर्ट की ओर से पेश अतिरिक्त सालिसिटर जनरल बलबीर सिंह को कोर्ट ने याचिकाओं को प्रतिकूल मुकदमे के तौर पर नहीं लेने की सलाह दी थी। कोर्ट ने कहा था कि इसे एक प्रतिकूल मुकदमे के रूप में न लें। यह 1,400 मेडिकल सीटों का सवाल है।

लंबे समय तक देश पर शासन करने वालों ने आदिवासी क्षेत्रों के विकास में नहीं ली कभी दिलचस्पी : पीएम मोदी

नवसारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को गुजरात में करीब 3,050 करोड़ रुपये की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को गुजरात में विकास पर प्रकाश डालते हुए कहा कि गुजरात का "गौरव" पिछले दो दशकों में राज्य का तेजी से विकास है। पीएम मोदी ने शुक्रवार को नवसारी में 'गुजरात गौरव अभियान' में हिस्सा लिया। वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मंच से विपक्ष पर हमला किया। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा, 'पिछले दो दशकों के दौरान राज्य में तेजी से विकास हुआ है, सभी के लिए विकास और इस विकास से पैदा हुई एक नई आकांक्षा है। डबल इंजन के दौरान राज्य को गौरवशाली परंपरा को ईमानदारी से आगे बढ़ा रही है।' 2014 में प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने से पहले, पीएम मोदी को



अक्टूबर 2001 से मई 2014 तक अपने कार्यकाल के साथ गुजरात के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले मुख्यमंत्री होने का गौरव प्राप्त है। पीएम मोदी के मुताबिक सरकार ने पिछले आठ सालों में गरीबों के उत्थान को अहमियत दी है। उन्होंने कहा, 'पिछले आठ वर्षों में, सबका साथ, सबका विकास के मंत्र का पालन करते हुए, हमारी सरकार ने गरीबों के कल्याण, गरीबों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने पर अत्यधिक जोर दिया है।' प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

ने इस मौके पर कहा- 'आज मुझे 3,000 करोड़ रुपये से अधिक का प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास करने का अवसर मिला। ये सारे प्रोजेक्ट सूरत, तापी, नवसारी, वलसाड सहित दक्षिण गुजरात के करोड़ों साथियों का जीवन आसान बनाएंगे।' प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार, इन परियोजनाओं से क्षेत्र में पानी की आपूर्ति में सुधार के साथ-साथ कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने और जीवन में आसानी को बढ़ाने में मदद मिलेगी।

देश में फिर बढ़े कोरोना के मामले, बीते 24 घंटे में मिले 7584 नए केस, मृतकों की संख्या में भी इजाफा



नई दिल्ली। देश में कोरोना के नए मामलों में फिर इजाफा देखने को मिला है। लगातार दूसरे दिन सात हजार से ज्यादा मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 7,584 नए केस मिले हैं। इससे पहले कल यानि गुरुवार को कोरोना के 7,240 मामले सामने आए थे। इसके अलावा बीते 24 घंटे में मृतकों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। कोरोना के कारण इस अवधि में 24 लोगों की मौत हुई है जबकि गुरुवार को 9 लोगों की मौत हुई थी। कोरोना के नए मामलों के मुकाबले रिकवरी होने वाले लोगों की संख्या लगातार कम

है। इस वजह से सक्रिय मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। देश में कोरोना से 3,791 मरीज ठीक हुए हैं। इसके साथ ही कोरोना के एक्टिव मामले बढ़कर अब 36,267 हो गए हैं। मंत्रालय ने बताया कि अब तक कुल 4 करोड़ 26 लाख 44 हजार 092 लोग कोरोना से रिकवरी हो चुके हैं जबकि 5 लाख 24 हजार 747 लोगों की मौत हो चुकी है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने बताया कि भारत में कल कोरोना वायरस के लिए 3,35,050 सैंपल टेस्ट किए गए। इसके साथ ही कल तक कुल 85,41,98,288 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं।

जुमे की नमाज के बाद देश के कई शहरों में प्रदर्शन जारी नूपुर शर्मा व नवीन जिंदल के खिलाफ कार्रवाई की मांग

नई दिल्ली। पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर मुस्लिम समुदाय में रोष है। जुमे की नमाज के बाद देश के कई शहरों में प्रदर्शन जारी है। इस क्रम में दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद और हावड़ा के साथ ही उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, लखनऊ और प्रयागराज में भी प्रदर्शन जारी है। के अधिकांश मस्जिदों के बाहर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। समुदाय विशेष की मांग है कि नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल को तत्काल गिरफ्तार किया जाए। इस क्रम में देश की राजधानी दिल्ली स्थित जामा मस्जिद के बाहर प्रदर्शन जारी है। हालांकि शाही इमाम ने कहा, 'ऐसे किसी विरोध प्रदर्शन के लिए एलान नहीं किया गया था।' जुमे की नमाज के बाद जामा मस्जिद के बाहर लोगों ने नूपुर शर्मा और बाकी लोगों को गिरफ्तारी की मांग की। हालात को काबू में करने के लिए पुलिस बल की भी तैनाती की गई है। डीसीपी श्वेता चौहान ने कहा, 'जामा मस्जिद में नमाज के लिए करीब 1,500 लोग जमा थे। नमाज के बाद करीब 300 लोग बाहर आए और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। 10-15 मिनटों में ही हमने हालात को नियंत्रण में

कर लिया। बिना अनुमति के ही विरोध प्रदर्शन सड़क पर हो रहा था इसलिए हम कानूनी कार्रवाई करेंगे।' प्रयागराज में भी जुमे की नमाज के बाद नूपुर शर्मा के खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान लोगों ने नारेबाजी भी की। इस क्रम में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव किया। खाड़ी देशों ने जताई थी आपत्ति नूपुर शर्मा के बयान को लेकर आक्रोश खाड़ी देशों तक पहुंच गया। हालांकि गुरुवार को भारत ने स्पष्टीकरण दिया था कि इस विवादित बयान से भारत का लेना देना नहीं है और यह देश की जमा था। नमाज के बाद करीब 300 लोग बाहर आए और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। 10-15 मिनटों में ही हमने हालात को नियंत्रण में

खिलाफ है और दूसरा पुजारी यति नरसिंहानंद व AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी समेत 31 लोगों के खिलाफ। पैगंबर मोहम्मद पर विवादित बयानों को लेकर जुमे की नमाज पर जनपद में आज सुबह ही हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया था। इंटरनेट मीडिया पर भारत बंद की अफवाह फैलाने वालों पर सीधे मुकदमे के आदेश दिए गए हैं। जनपद में जोन और सेक्टर व्यवस्था लागू कर पीएस और आरएफ भी लगा दी गई है। अतिसेवेदनशील क्षेत्रों में मकानों की छतों की ड्रोन से निगरानी की जा रही है। ताकि पता चल सके कि मकानों की छतों पर पत्थर तो नहीं रखे गए हैं। एसएसपी प्रभाकर चौधरी ने बताया कि शुक्रवार को जुमे की नमाज को लेकर जनपद में हाईअलर्ट घोषित कर दिया है। इंटरनेट मीडिया पर भारत बंद की अफवाह फैलाने वालों पर सीधे मुकदमा दर्ज किया जाएगा। साथ ही लाउडस्पीकर से शहर के प्रमुख बाजारों में व्यापारियों को एलान करा दिया है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में गुरुवार को ही मुस्लिम समुदाय की आक्रोशित महिलाओं ने हाजीपुरा से नालबंद तक तख्तियां लेकर जुलूस निकाल कर प्रदर्शन किया।

सिद्ध मूसेवाला हत्याकांड में एक और शूटर अरेस्ट अब तक की यह 9वीं गिरफ्तारी

नई दिल्ली। पंजाब पुलिस ने सिद्ध मूसेवाला हत्याकांड में एक और संदिग्ध शूटर को गिरफ्तार किया है। सूत्रों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। माना जाता है कि यह व्यक्ति उस घुप का हिस्सा था जिसने पंजाब के गायक-राजनेता पर गोली चलाई थी। राज्य के मानसा जिले में 29 मई को 28 वर्षीय रैपर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्या के मामले में अब तक नौ लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। एसआईटी ने अपने पहले आधिकारिक बयान में कहा कि 29 मई को शाम 4.30 बजे अपने पड़ोसी गुरखिंदर सिंह और चचेरे भाई गुरप्रीत सिंह के साथ मूसेवाला घर से निकले थे, जिस दौरान अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर उनका हत्या कर दी। मूसेवाला की हत्या के मामले में एक अन्य संदिग्ध सिद्धे हरामन कांबले उर्फ महाकाल को पुलिस ने बुधवार को गिरफ्तार किया था। अधिकारियों ने बताया कि कांबले और एक अन्य संदिग्ध संतोष जाधव दोनों मूसेवाला

हत्याकांड में सलिप थे और साजिश के बारे में इन्हें भी पता था। कांबले और जाधव पुणे के रहने वाले हैं। उन्होंने बताया कि जाधव को पहचान हत्याकांड में शामिल शूटर के रूप में की गई है। महाराष्ट्र के पंजाब के गायक-राजनेता पर गोली चलाई थी। राज्य के मानसा जिले में 29 मई को 28 वर्षीय रैपर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्या के मामले में अब तक नौ लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। एसआईटी ने अपने पहले आधिकारिक बयान में कहा कि 29 मई को शाम 4.30 बजे अपने पड़ोसी गुरखिंदर सिंह और चचेरे भाई गुरप्रीत सिंह के साथ मूसेवाला घर से निकले थे, जिस दौरान अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर उनका हत्या कर दी। मूसेवाला की हत्या के मामले में एक अन्य संदिग्ध सिद्धे हरामन कांबले उर्फ महाकाल को पुलिस ने बुधवार को गिरफ्तार किया था। अधिकारियों ने बताया कि कांबले और एक अन्य संदिग्ध संतोष जाधव दोनों मूसेवाला

तस्वीर पोस्ट करते हुए विग्नेश बोले 'जस्ट मैरिड नयनतारा'



चेन्नई (आईएनएस)। महाबलीपुरम के एक लोकप्रिय रिसॉर्ट में गुरुवार सुबह अपनी प्रेमिका नयनतारा से शादी करने वाले निर्देशक विग्नेश शिवन ने अपनी शादी की पहली तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट की है। ट्विटर पर पोस्ट शेयर करते हुए, विग्नेश शिवन ने अपनी शादी के तुरंत बाद अपनी पत्नी के माथे पर एक किस करते हुए उनकी एक तस्वीर पोस्ट की और कहा, भगवान की कृपा से, मातापिता और सबसे अच्छे दोस्तों के आशीर्वाद से, अभी नयनतारा से शादी की।

विग्नेश शिवन ने आज सुबह लगभग 10.24 बजे अभिनेत्री नयनतारा के गले में पवित्र 'थाली' बांधी, जबकि शादी में आए मेहमानों ने नवविवाहित जोड़े को आशीर्वाद दिया। सूत्रों ने कहा कि यह जोड़ा शादी के बाद संघ से नीचे आया और दर्शकों ने शाहरुख खान और निर्देशक मणिरत्नम के बगल में बैठे सुपरस्टार रजनीकांत का आशीर्वाद लिया। अपनी शादी की व्यवस्था के तहत, जोड़े ने पूरे राज्य में 18,000 बच्चों को भोजन उपलब्ध कराने का विकल्प भी चुना है।



फूड सीक्वेंसिंग से होगा ग्लूकोज का स्तर सही

एडीलेड (द कन्वरसेशन)। बायोकेमिस्ट और 'ग्लूकोज रेवोल्यूशन' की लेखिका जेस्सी इनशाप का कहना है कि भोजन में आया हल्का बदलाव भी आपको जिंदगी बदल सकता है। मुख्यधारा के मीडिया और इंस्टाग्राम पर 'ग्लूकोज गाइड्स मूवमेंट' की संस्थापक का कहना है कि एक तय तरीके से भोजन करना सबसे महत्वपूर्ण है। इनशाप का कहना है कि भोजन में प्रोटीन (जैसे मांस, अंडा, मछली, दाल, दूध) से पहले सलाद खाना और खाने के अंत में कार्बोहाइड्रेट (रोटी, चावल, ब्रेड, आलू) खाने से रक्त में शर्करा तेजी से नहीं बढ़ती है और यह सेहत के लिए बेहतर है। वैज्ञानिक रूप से बात करें तो यह सही भी है और यह व्यावहारिक भी है।

ग्लूकोज की मात्रा कार्बोहाइड्रेट खाने के 30 से 60 मिनट के बाद है बढ़ती : आपके शरीर में ग्लूकोज की मात्रा कार्बोहाइड्रेट खाने के 30 से 60 मिनट के बाद बढ़ती है। ग्लूकोज की मात्रा कितनी बढ़ेगी और कितनी देर तक बढ़ी रहेगी, यह कई कारकों से तय होता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट के साथ या उससे पहले आपने क्या खाया, कार्बोहाइड्रेट में फाइबर की मात्रा कितनी थी और आपका शरीर कितनी मात्रा में इंसुलिन का स्राव करता है और उसका उपयोग करता है। कुछ स्वास्थ्य समस्याओं से जुड़ा रहे लोगों के लिए

ग्लूकोज को बढ़ने से रोकने का कोई भी तरीका बहुत महत्वपूर्ण है। ये विकित्सा समस्याएं हैं।

मधुमेह : रीएक्टिव हाइपोग्लेसेमिया (भोजन करने के बाद रक्त शर्करा के स्तर में कमी आना, खास तौर से भोजन करने के चार घंटे के भीतर) पोस्टप्रांडियल हाइपोग्लेसेमिया (भोजन करने के तुरंत बाद रक्तचाप में अचानक बहुत कमी आना)। कार्बोहाइड्रेट से पहले कुछ खास तरीके का भोजन करने से क्या ग्लूकोज की मात्रा के बढ़ने-घटने पर असर होता है? हां, ऐसा होता है। और यह नया नहीं है।

वैज्ञानिकों को लंबे समय से पता है कि उच्च फाइबर वाले खाद्य पदार्थ जैसे सलाद आदि के मामले में भोजन पचने और उसके पेट से बाहर निकलने में देरी होती है। इसलिए उच्च फाइबर वाले भोजन से ग्लूकोज और अन्य पोषक तत्व छोटी आंत में धीरे-धीरे निकलते हैं और रक्त से मिलते हैं। प्रोटीन और वसा भी भोजन के पचने में देरी करते हैं। प्रोटीन ग्लूकोजाने जैसे पेप्टाइड-1 के स्राव को बढ़ावा देता है। ऐसे में आपको प्रोटीन वाला भोजन जब आपकी आंत की कोशिकाओं तक पहुंचता है तो वह उतक हार्मोन निकलता है जिससे भोजन पचने की दर और धीमी हो जाती है। यह हार्मोन अग्याशय को भी प्रभावित करता है जो इंसुलिन हार्मोन के स्राव में मदद करता है और आपके शरीर में ग्लूकोज के स्तर को घटाता-बढ़ाता है।

भारतीय मूल के डाक्टर की अगुआई में पैन्क्रिएटिक कैंसर के टीके का परीक्षण



न्यूयार्क (आईएनएस)। भारतीय मूल के डाक्टर डा विनोद बालाचंद्रन की अगुआई में दुनिया में पहली बार पैन्क्रिएटिक कैंसर के एमआरएनए आधारित टीके का परीक्षण चल रहा है। शुरूआती चरण में इस टीके का परीक्षण सफल बताया जा रहा है। जर्मनी की बायोटेक कंपनी बायोएनेटेक एमआरएनए के आधार पर इस टीके को विकसित कर रही है। इस टीम की अगुवाई न्यूयार्क के मेमोरियल स्लोअन केटरिंग कैंसर सेंटर के डा विनोद कर रहे हैं। परीक्षण के दौरान पाया गया कि ट्यूमर हटाए जाने और टीका लेने के 18 माह बाद 50 फीसदी मरीजों कैंसर मुक्त थे।

कैंसर सेंटर के अनुसार, इस टीके का मुख्य आधार पैन्क्रिएटिव ट्यूमर का प्रोटीन नियोएंटीजेन है। यह इंसुलिन सिस्टम को सतर्क करता है कि वह कैंसर को दूर रखे। इस तरफ का परीक्षण दवा कंपनी माडर्ना पेट के सोसाइटी आफ क्लिनिकल आन्कोलाजी

कॉन्स में भी प्रस्तुत किया गया है। परीक्षण के दौरान पाया गया कि 16 में से आठ मरीजों में टीके ने टी सेल को सक्रिय कर दिया। यह टी सेल पैन्क्रिएटिक कैंसर की पहचान करता है। इन मरीजों के पैन्क्रिएटिक कैंसर से देवारा ग्रसित होने की गति धीमी पाई गई। डा विनोद के मुताबिक, एमआरएनए टीका इंसुलिन सिस्टम को सक्रिय कर देता है, जो पैन्क्रिएटिक कैंसर की कोशिका का पहचान करता है और उन पर हमला करता है। शुरूआती परिणाम उत्साहवर्धक हैं क्योंकि अगर मरीज का इंसुलिन सिस्टम सही है तो इसका परिणाम बेहतर हो सकता है। उन्होंने कहा कि यह अन्य प्रकार के कैंसर से ग्रसित मरीजों के लिए अच्छी खबर है क्योंकि पैन्क्रिएटिक कैंसर का उपचार पारंपरिक कीमोथेरेपी और इंसुलिनोथेरेपी से बहुत मुश्किल होता है। इस तरफ का परीक्षण दवा कंपनी माडर्ना पेट के कैंसर के लिए कर रही है।

तंबाकू नियंत्रण के लिए पीजीआई चंडीगढ़ पुरस्कार से सम्मानित

चंडीगढ़ (आईएनएस)। तंबाकू नियंत्रण के प्रयास के लिए डब्ल्यूएचओ ने पोस्टग्रेजुएट इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (पीजीआईएमईआर) में सामुदायिक चिकित्सा विभाग और स्कूल आफ पब्लिक हेल्थ के रिसोर्स सेंटर फार टोबैको कंट्रोल (ई-आरसीटीसी) को

चंडीगढ़ में क्षेत्रीय निर्देशक विशेष मान्यता पुरस्कार देकर सम्मानित किया है। ई-आरसीटीसी के निर्देशक सोनू गायल ने कहा रिसोर्स सेंटर फार टोबैको कंट्रोल भारत में तंबाकू नियंत्रण से संबंधित जानकारी प्रदान करता है, जिसमें परिपत्र और आदेश, नीतियां और कानून, बहु-

विषयक प्रकाशन शामिल हैं।

गायल ने कहा कि एक संसाधन केंद्र होने के अलावा, केंद्र ने लगभग 3,500 कार्यक्रम प्रबंधकों और शिक्षाविदों के लिए 50 से अधिक कार्यशालाओं और वेबिनार का आयोजन करके क्षमता निर्माण में ऊंचाईयों को हासिल किया है। ई-




आरसीटीसी के टोबैकोफ्री टाइम्स के आधिकारिक प्रकाशन के बारे में उल्लेख करते हुए उप क्षेत्रीय निर्देशक, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ ट्यूबेकुलोसिस एंड लंग डिजीज, साउथईस्ट एशिया (एसईए) राणा जे सिंह ने कहा यह विषय-आधारित समाचार पत्र द्विमासिक जारी किया जाता है जिसमें तंबाकू

नियंत्रण से संबंधित लेख होते हैं। यह विषय-आधारित समाचार पत्र द्विमासिक लेखों से युक्त है। समाचार पत्र के अब तक 19 सीजन जारी किए जा चुके हैं।

तंबाकू नियंत्रण के लिए संसाधन केंद्र, पीजीआईएमईआर और यूनियनएसईए की द्विमासिक जारी किया जाता है जिसमें तंबाकू

नियंत्रण पर काम करने वाले 25 संगठनों द्वारा तंबाकू नियंत्रण पहलों को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था। ई-आरसीटीसी के परियोजना समन्वयक राजीव कुमार ने कहा कि पोर्टल ने तीन वर्षों में 100 देशों के 4.2 लाख आगंतुकों को आकर्षित किया है।

चार घंटे के मेकओवर के बाद चंद बरदाई का लुक अपनाते थे सोनू



मुंबई (वार्ता)। बालीवुड अभिनेता सोनू सूद को फिल्म सम्राट पृथ्वीराज में चंद बरदाई का लुक पाने के लिए चार घंटे का समय लगता था। सोनू सूद ने फिल्म सम्राट पृथ्वीराज में चंद बरदाई का किरदार निभाया है। सोनू ने इंस्टाग्राम पर वीडियो वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में उनके चंद बरदाई के लुक को बनाने के पीछे जो काम हुआ उसे दिखाया गया है। वीडियो में सोनू सूद अपने लुक के लिए तैयार हो रहे हैं। सोनू सूद चार घंटे के मेकओवर के बाद चंद बरदाई का लुक पाते थे। गौरतलब है कि सम्राट पृथ्वीराज 3 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है।

ब्रेस्ट कैंसर से जूझ रही हैं महिमा चौधरी




मुंबई (आईएनएस)। महिमा चौधरी ब्रेस्ट कैंसर से जूझ रही हैं। दरअसल, अनुपम ने एक वीडियो को शेयर कर कैंसर की बीमारी के बारे में बताया है और उन्हें हीरो कहकर संबोधित किया। अनुपम खेर ने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर करते हुए कैंसर में लिखा, महिमा चौधरी के साहस और कैंसर की कहानी: मैंने अपनी 525 वीं फिल्म द सिनेचर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए महिमा चौधरी को एक महीने पहले अमेरिका से काल किया था। हमारी बातचीत में पता चला कि महिमा ब्रेस्ट कैंसर से जूझ रही हैं।

संजीव कुमार के रिश्तेदार ने लिखी उनकी जीवनी

नई दिल्ली (भाषा)। गुजरे जमाने के लोकप्रिय अभिनेता संजीव कुमार के विविधतापूर्ण जीवन और करियर पर प्रकाश डालने वाली एक नई पुस्तक बाजार में आने वाली है जिसे उनके रिश्तेदार उदय जरीवाला और रीता राममूर्ति गुप्ता ने लिखा है। पुस्तक में कुमार की उन उपलब्धियों का उल्लेख भी किया गया है जिनका प्रयोग उन्होंने फिल्मोद्योग में पहली बार किया। हिंदी सिनेमा में प्रोस्थेटिक मेकअप का इस्तेमाल करने वाले कुमार पहले अभिनेता थे। इसके अलावा उन्हें एक पिक्चर में नौ भूमिकाएं अदा करने और भारत में प्रतिबंधित होने वाली पहली फिल्मों में से एक का हिस्सा होने का भी श्रेय दिया जाता है।

जरीवाला और गुप्ता की पुस्तक 'संजीव कुमार: द एक्टर वी आल लव्ड' हार्पर कालिन्स द्वारा नौ जुलाई को प्रकाशित की जाएगी। पुस्तक को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रोत्साहन मिल चुका है और इसमें गुलजार, रणधीर कपूर, शर्मिला टैगोर, मौसमी चटर्जी, तनुजा और अन्य ने भी अध्याय लिखे हैं। जरीवाला का कहना है कि इस पुस्तक को पूरा करने में चार साल का समय लगा। उन्होंने कहा, यह उनके जीवन का प्रामाणिक दस्तावेज है। पहली बार, उनके प्रशंसक उन्हें नजदीक से जान पाएंगे।

सह लेखक गुप्ता ने कहा, पुस्तक लिखने के दौरान एक चीज जो मुझे समझ में आई वह ये थी कि संजीव कुमार के दोस्तों ने मुझे



कहा कि कृपया एक खुशनुमा किताब लिखें क्योंकि हरिभाई एक खुश रहने वाले व्यक्ति थे। मुझे लगता है कि पुस्तक लिखकर मैं यह हासिल करने में कामयाब हुई हूँ। गौरतलब है कि संजीव कुमार का असली नाम हरिहर जेटालाल जरीवाला था। हार्पर कालिन्स के कार्यकारी प्रकाशक उदय मित्रा ने कहा कि यह पुस्तक उस कलाकार के लिए एक बेहतरीन श्रद्धांजलि है जिसे हम सभी प्यार करते थे। मोदी ने कुमार को एक सहज और सबसे प्रभावशाली अभिनेताओं में से एक बताया है।



हरिद्वार : बृहस्पतिवार को गंगा दशहरा के अवसर पर हर की पौड़ी पर गंगा में स्नान करने के लिए जुटे श्रद्धालु।

'दिलदार दूल्हा' का फर्स्ट लुक रिलीज

मुंबई (वार्ता)। भोजपुरी अभिनेता प्रवेश लाल यादव की आने वाली फिल्म 'दिलदार दूल्हा' का फर्स्ट लुक रिलीज हो गया है। निर्माता-निर्देशक महमूद आलम की भोजपुरी फिल्म 'दिलदार दूल्हा' का फर्स्ट लुक आउट हो गया है। इस फिल्म में प्रवेश लाल यादव, ऋचा दीक्षित और जोया खान की मुख्य भूमिका है। मां शान्ति मोशन पिक्चर्स प्रस्तुत आलम ब्रदर्स प्रोडक्शन की आलम ब्रदर्स कृत फिल्म 'दिलदार दूल्हा' का फर्स्ट लुक दर्शकों को खूब पसंद आ रहा है।

महमूद आलम ने बताया कि जल्द ही वह इस फिल्म को उत्तर प्रदेश और दिल्ली के सिनेमाघरों में रिलीज करने वाले हैं। इसके बाद वह फिल्म को अन्य जगहों पर भी रिलीज करेंगे। उन्होंने कहा कि यह त्रिकोणीय प्रेम कथा है। इसकी कहानी रोचक है। इस फिल्म का निर्माण हमने भव्य पैमाने पर किया है। इस कहानी से लोगों को प्रेरणा भी मिलेगी। साथ ही हमने महिला दर्शकों को ध्यान में रख कर इस फिल्म को बनाया है।



राजकुमार राव ने पत्नी पालेखा संग किया डांस



मुंबई (वार्ता)। अभिनेता राजकुमार राव ने अपनी पत्नी पालेखा के साथ 'सपने में मिलती है' गाना पर डांस किया है। राजकुमार राव ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वह अपनी पत्नी पालेखा के साथ सुपरहिट फिल्म 'सत्या' के गाना 'सपने में मिलती है' पर डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। राजकुमार ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, जब आपका पार्टनर ही आपका ब्रेस्ट ड्रासिंग पार्टनर भी हो। वीडियो में राजकुमार और पालेखा दोनों फुल मस्ती के मूड में दिखाई दे रहे हैं। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फैंस इस वीडियो को काफी पसंद कर रहे हैं।

मिताली राज का किरदार निभाकर खुशकिस्मत मानती हैं तापसी

मुंबई (वार्ता)। बालीवुड अभिनेत्री तापसी पन्नू क्रिकेटर मिताली राज का किरदार निभाकर खुद को खुशकिस्मत मानती हैं। भारतीय क्रिकेट टीम की खिलाड़ी और वन डे टीम की कप्तानी मिताली राज ने खेल से संन्यास लेने का एलान किया है। तापसी पन्नू, मिताली राज की बायोपिक 'शाबाश मिट्टू' में मिताली राज का किरदार निभा रही हैं। मिताली राज के इस एलान के बाद तापसी पन्नू ने एक स्टेटमेंट जारी करके अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं।

तापसी पन्नू ने कहा, तमाम क्रिकेटर्स ऐसे हैं, जिनके नाम पर कई रिकॉर्ड्स हैं। ऐसे भी क्रिकेटर्स हैं, जिनकी तगड़ी फैन फॉलोइंग है। ऐसे क्रिकेटर्स हैं, जो आपको प्रेरित करते हैं और आपको यकीन दिलवाते हैं कि यदि वह कर सकते हैं तो आप भी। और फिर आप हैं मिताली, जिसने यह सब अपने क्लासिक गरिमामयी अंदाज में किया। साथ ही क्रिकेट का गेम भी बदल दिया। अपने देश में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में क्रिकेट में योगदान देने के लिए वो याद की जाएंगी। मैं खुद को सौभाग्यशाली फैन मानती हूँ, जिसे कैमरे पर आपके जीवन के 23 साल जीने को मिले, जिसने मुझे लचीलेपन के साथ ज़िद के बारे में बहुत कुछ सिखाया। वो ऐसी लीजेंड हैं, जिनका जितना शुक्रिया करे, कम है।



संक्षिप्त खबरें

इंडिगो ने किया करार

नई दिल्ली। अमेरिकन एयरलाइंस और इंडिगो ने एक कोडशेयर समझौता शुरू किया है। इस समझौते के तहत अमेरिकन एयरलाइंस दिल्ली-बंगलुरु और दिल्ली-मुंबई रूट पर चलने वाली इंडिगो की उड़ानों की सीटें बेच सकेगी। अमेरिकन एयरलाइंस वर्तमान में केवल न्यूयार्क-दिल्ली रूट पर उड़ानें संचालित करती है। अमेरिकन एयरलाइंस ने एक बयान में कहा, 'अमेरिकन और इंडिगो ने भारत में (बंगलुरु और मुंबई के अलावा) एक दर्जन से अधिक अतिरिक्त गंतव्यों को शामिल करने के लिए कोडशेयर का विस्तार करने की योजना बनाई है।' कोयला आयात की निविदा नई दिल्ली। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी सीआईएल ने देश में बिजली संयंत्रों को इंधन की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 24.16 लाख टन कोयले का आयात करने के लिए पहली निविदा जारी की है। अप्रैल में जीवाश्म इंधन की कमी के कारण हुई बिजली कटौती की पुनरावृत्ति से बचने के लिए सरकार द्वारा कोयले का भंडार बनाने के लिए सभी प्रयास करने के मद्देनजर यह विकास महत्वपूर्ण है। कंपनी ने एक बयान में कहा, 'पहली बार कोल इंडिया ने एक अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोली ई-निविदा जारी की, जिसमें 24.16 लाख टन कोयले के आयात के लिए बोलियां मांगी गईं।' आकाश एयर का समझौता नई दिल्ली। आकाश एयर ने पांच बोइंग 737 मैक्स विमानों की विक्री और लीजबैंक के लिए आयरलैंड की लीजिंग कंपनी ग्लिफिन ग्लोबल एसेट मैनेजमेंट के साथ समझौता किया है। विक्री और लीजबैंक माडल के तहत विमानन कंपनी अपने विमानों को एक लीजिंग कंपनी को बेचती है और फिर उन्हें वापस पट्टे पर ले लेती है। इस तरह एयरलाइन को वह नकदी वापस मिल जाती है, जो उसने विमान खरीदने के लिए खर्च की थी। डीजीसीए द्वारा मैक्स विमानों को हरी झंडी देने के लगभग तीन महीने बाद आकाश ने यह करार किया है।

फाक्सवैनग की नई कार

नई दिल्ली। फाक्सवैनग इंडिया ने अपनी मध्यम आकार की सेडान कार 'वर्टस' को उतारा है। इसकी शुरुआती शोरूम कीमत 11.21 लाख रुपए है। कंपनी की सेडान श्रृंखला की नई मध्यम आकार की कार धरेनु बाजार में होंडा सिटी, मारुति सियाज, हुंडई वर्ना और स्कोडा स्लाविया को टक्कर देगी। समूह की भारत 2.0 परियोजना के तहत वर्टस दसवा उत्पाद है। यह गाड़ी एक लीटर और 1.5 लीटर टीएसआई इंजन पावरट्रेन में उपलब्ध होगी। एक-लीटर वाले ट्रिम की शोरूम कीमत 11.21 लाख रुपए से 15.71 लाख रुपए के बीच है।

मुख्यमंत्री योगी पहुंचे गोरखपुर सुबह लगा जनता दरवार में फरियादियों का लगा ताता संबंधित अधिकारियों को दिए गए सख्त निर्देश



प्रखर गोरखपुर। आपको बताते चलें कि उत्तर प्रदेश सुबह के सुबिखा योगी आदित्यनाथ दो दिवसीय दौरे पर पहुंचे गृह जनपद गोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर के हिन्दू सेवाश्रम ने लगाया जनता दर्शन का कार्यक्रम दूसराज से आए फरियादियों की फरियाद सुन उसके निस्तारण का मौजूद अधिकारियों को दिए निर्देश गोरखनाथ मंदिर में प्रातः भ्रमण के दौरान कालू और गुल्लू को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिरकुट खिलावा ।

भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया स्वच्छता अभियान, किया मूर्ति की सफाई, बाटे पत्रक

प्रखर पूर्वांचल वाराणसी। प्रधानमंत्री जी के 8 वर्ष के कार्यकाल पूर्ण होने पर सेवा समर्पण व गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत चल रहे कार्यक्रम के अंतर्गत शुकवार को स्वच्छता अभियान के तहत शहर दक्षिणी विधानसभा में विधायक डॉ नीलकंठ तिवारी के साथ मध्येश्वर मंडल के बलुआबीर क्षेत्र की गलियों में आजादी के अमृत महोत्सव पर 75 दिनों तक स्वच्छता के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए, कार्यकर्ताओं ने स्वच्छता व जागरूकता अभियान एवं पत्रक वितरण का कार्यक्रम भी चलाया गया। इस दौरान शहर दक्षिणी विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी, मंडल अध्यक्ष संदीप चौरसिया, काशीनाथ अकेला, तारकेश्वर गुप्ता बंटी, ऋतुराज सिंह, सचिन सिंह, विपिन पाठक, योगेश सिंह पिंठू, प्रदीप चौधरी, संदीप सिंह आदि शामिल रहे वहीं उत्तरी विधानसभा में सारनाथ मंडल के खजूरी सेक्टर में स्वच्छता अभियान के तहत मुंशी प्रेमचंद जी की मूर्ति सफाई व एवं पंडेयपुर चौहाने पर सफाई अभियान चलाकर मूर्ति पर माल्यार्पण किया गया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जी के 8 वर्षों के कार्य का पत्रक क्षेत्र में बाँटा गया। महानगर मीडिया प्रभारी किशोर कुमार सेठ के अनुसार कार्यक्रमों के दौरान मुख्य रूप से पूर्व विधान परिषद सदस्य डॉक्टर शिवनाथ यादव, महानगर महामंत्री जगदीश त्रिपाठी, महानगर उपाध्यक्ष मधुकर चित्रांश, पाण्डे गण- मदन मोहन दुबे, शैलेंद्र श्रीवास्तव, अशोक मौर्या, मंडल अध्यक्ष अजीत सिंह, आलोक देव मिश्रा, हरीश चंद्र मौर्या, शंभू पटेल, शंभू मौर्या, रवि शंकर पटेल, बल्लू यादव, अजीतजी, राम सिंह, भोला यादव, अमित दुबे, हनुमान यादव, नंद कुमार वमा सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे।

क्रिप्टो को अभी पास करनी है 'फिएट करेंसी' बनने की परीक्षा

नई दिल्ली (भाषा) ।

मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंत नागेश्वर ने बुद्धिमत्तिवादी को कहा कि एक केंद्रीकृत नियामक प्राधिकरण के अभाव में क्रिप्टो करेंसी 'कैरिबियाई समुद्री लुटेरों की दुनिया' जैसी है। उन्होंने साथ ही कहा कि क्रिप्टो को 'फिएट करेंसी' बनने की परीक्षा पास करनी अभी बाकी है।

उन्होंने कहा कि फिएट करेंसी के विपरीत, क्रिप्टो मुद्रा निहित मूल्य, व्यापक स्वीकार्यता और मौद्रिक इकाई जैसी बुनियादी

आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकती है। नागेश्वर ने विकेंद्रीकृत वित्त (डीएफआई) का जिक्र करते हुए कहा, 'हलांकि, इसे नवाचार माना जाता है, लेकिन मैं अपना निर्णय सुरक्षित रखूंगा कि क्या यह वास्तव में नवाचार है या यह कुछ ऐसा है, जिसका हमें पछतावा होगा।' उन्होंने एसोचैम के एक कार्यक्रम में कहा कि वह रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर टी. रवि शंकर से सहमत हैं, जो कह रहे हैं कि क्रिप्टोकरेंसी और विकेंद्रीकृत वित्त के संबंध में यह नियामक मध्यस्थता का मामला अधिक लगा रहा है,

राय



कैसे कहते हैं 'फिएट करेंसी'

'फिएट करेंसी' सामान्य तौर पर सरकार द्वारा समर्थित मुद्रा को कहते हैं। यह करेंसी किसी कीमती धातु की जगह सरकार में भरघोस पर टिकी होती है।


सीईए वी. अनंत नागेश्वर ने कहा, इस करेंसी का विनियमन जरूरी है। बुनियादी जरूरतों को पूरा नहीं कर सकती क्रिप्टोकरेंसी । क्रिप्टोकरेंसी पर एक परामर्श पत्र तैयार कर रही है केंद्र सरकार

बजाए कि वास्तविक वित्तीय नवाचार के। उन्होंने कहा, फिएट मुद्राओं के विकल्प के रूप में क्रिप्टोकरेंसी को कई उद्देश्यों को पूरा करना होगा। इसमें निहित मूल्य होना चाहिए। इसकी व्यापक स्वीकार्यता होनी चाहिए और यह एक मौद्रिक इकाई होनी चाहिए। इस लिहाज से क्रिप्टो या डिएएफआई जैसे नए नवाचार को अभी परीक्षा पास करनी बाकी है।' सरकार क्रिप्टो करेंसी के संबंध में एक परामर्श पत्र पर काम कर रही है और विश्व बैंक तथा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) सहित विभिन्न द्विपक्षीय संसुझाव ले रही है। उन्होंने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए पुरजोर कोशिश कर रही है कि पिछले चार वर्षों की वृद्धि, मुद्रास्फीति तथा रुपए की स्थिरता के रूप में मिला लाभ कम न हो।

नागेश्वर ने अर्थव्यवस्था के बारे में कहा कि सरकार चार चीजों 'राजकोपीय घाटा, आर्थिक वृद्धि, गरीब और कम आय वाले परिवारों के लिए आजीविका की लागत को कम रखना और रुपए को बहुत अधिक कमजोर होने से रोकना' के बीच संतुलन बनाने के लिए पूरी कोशिश कर रही है।

7000 दीपों से दीप कोलाज बनाकर उकेरा मुख्यमंत्री का चित्र

प्रखर गोरखपुर। जागरूक गोरखपुर फाउंडेशन एवं गोरखपुर उद्योग व्यापार एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में रामगढ़ताल स्थित नौकायन जटी पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीते 05 जून के जन्मदिन के अवसर पर उनके यशस्वी जीवन की कामना को लेकर रोचक एवं अनूठे कार्यक्रम का आयोजन किया गया। लगभग 22 कलाकारों ने सात हजार दीपों द्वारा रंगीन दीपकों के कोलाज से उत्तर प्रदेश के पटल पर मुख्यमंत्री के मुस्कुराते चेहरे की तस्वीर उकेरने का कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री के पचासवें जन्मदिन पर 50 वर्ग मीटर के दायरें में केसरिया बैकग्राउंड में उकेरा गया मुख्यमंत्री का मुस्कुराता चित्र बेहद आकर्षक लग रहा था। चूकि जागरूक गोरखपुर फाउंडेशन द्वारा विगत पांच जून को महामहिम राष्ट्रपति के दौरे के कारण इस कार्यक्रम का आयोजन टल गया था। इस अवसर पर नागरिक समाज के 50 लोगों को पौधे देकर सम्मानित भी किया गया। जागरूक गोरखपुर फाउंडेशन के अमित सिंह पटेल ने इस अवसर पर कहा कि प्रदेश में मुख्यमंत्री की मुखाकृति को दीप कोलाज के माध्यम से चित्रित करने का यह उत्तर प्रदेश का पहला कार्यक्रम है। यह नागरिक समाज की ओर से मुख्यमंत्री को शुभकामना देने का अनूठा प्रयास है जो आगे भी जारी रखा जाएगा। गोरखपुर उद्योग व्यापार असोसिएशन के जिलाध्यक्ष नितिन जायसवाल ने सभी का आभार प्रकट कर शुभकामना दी।



कार्यक्रम में इनका हुआ सम्मान- पुष्प दंत जैन, डॉ एस के लाठ, रोली लाठ, गिरजा शंकर जायसवाल, विवेक अग्रवाल, डॉ मनोज जायसवाल, जसपाल सिंह, विनय गौतम, दुर्गाेश बजाज, प्रो हर्ष सिन्हा, डॉ ऋषभ गोयल, परमानन्द पाण्डेव, अनूप किशोर अग्रवाल, रमेश चंद्र गुप्ता, राजीव शुक्ला, महावीर गुप्ता, अलोक चौरसिया, उमेश मधेसिया, आशीष नन्दन सिंह, अनुपम सहाय, प्रेम प्रकाश गिरी, धीरज सिंह, सुनीता बरनवाल, श्रीनारायण पाण्डेय जी आर बरनवाल, कनक हरी इत्यादि इन कलाकारों ने बनाया दीप कोलाज शिवम गुप्ता, शिवम कुमार, शिवम शर्मा, शोनीला द्विवेदी, शालिनी पासवान, साक्षी दुबे, सुभिता गुप्ता, प्राची पाठक, गौरी, अभिषेक, रोशन, प्रकाश राव, निकिता यादव, मोहम्मद सिंह, हर्षिता, नीशू यादव, बबोती, काजल साहनी, रेखा, अनामिका, रितु व तरुण सरावगी।

सनातन राष्ट्र रक्षक महाराजा सुहेलदेव जी भगवान शंकर के उपासक थे - शशिप्रताप सिंह

प्रखर पूर्वांचल वाराणसी। 10 जून को शशिप्रताप सिंह पूर्व उपाध्यक्ष सुभासपा अपना आवास शिवपुर पर हिन्दू राष्ट्र रक्षक महाराजा सुहेलदेव के फोटो पर माल्यार्पण कर विजय दिवस मनाया कहा कि महाराजा सुहेलदेव ने महमूद गजनवी के भांजे और सैय्यद सालार मसूद गाजी पर ऐतिहासिक विजय की कहानी भले ही हजार साल पुरानी हो लेकिन 10 जून को उनकी वीरता व विजय पर एक बार फिर जीवंत हो उठती है राजा सुहेलदेव को हिन्दू राष्ट्र रक्षक, सनातन संस्कृति रक्षक के रूप में हिन्दू समाज का मान-सम्मान का प्रतीक माना जाता है। राजा सुहेलदेव भगवान शंकर के उपासक थे उनकी हर तस्वीर में भगवान शंकर जी के शिवलिंग कि पूजा करते पाया गया है 70 किलो का तलवार चलाने में निपुण योद्धा थे धनुष विद्या में भी निपुण थे। किसान कुल में जन्मे सुहेलदेव जी अपनी पराक्रम से बहराइच श्रावस्ती के राजा बने थे। महाराजा सुहेलदेव जी 11 वीं सदी में श्रावस्ती के सम्राट थे। सुहेलदेव जी ने महमूद गजनवी के भांजे सालार मसूद को मारा था। 10 जून 1033 को श्रावस्ती के राजा सुहेलदेव जी और सैयद सालार मसूद के बीच बहराइच के चितौड़ा झील के तट पर युद्ध हुआ था। लड़ाई में सुहेलदेव जी की सेना ने सालार मसूद की सेना को पूरी तरह नष्ट कर दिया था। हिन्दू समुदाय की बड़ी विरासत को सभालने वाले सुहेलदेव जी अपनी शक्ति और संगठन वल और सहज विचार भाईदारा जाति महजबब को एक करके वह राज स्थापित करने में कामयाब हो हुये थे। उनका राज्य भी कोई बहुत विशाल इलाके में नहीं था मगर सबके प्रिय थे।



वाराणसी एवं गोरक्षा प्रकोष्ठ के वरिष्ठ पदाधिकारीयों ने मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी महाराज के जन्मदिन को हिन्दू स्वाभिमान दिवस के रूप में मनाया

प्रखर पूर्वांचल वाराणसी। विश्व हिंदू महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री परम पूज्य आदित्यनाथ योगी महाराज जी के जन्मदिन हिन्दू स्वाभिमान दिवस के सप्ताहांत कार्यक्रम में हिन्दू राष्ट्रियता का पर्याय है में जिला वाराणसी एवं गोरक्षा प्रकोष्ठ एवं सभी प्रकोष्ठ के समस्त वरिष्ठ पदाधिकारीयों प्रदेश अध्यक्ष गोरक्षा प्रदेश उपाध्यक्ष और मंडल प्रभारी महासंघ एवं प्रदेश अध्यक्ष मातृशक्ति उपस्थिति में हुआ। धर्म संघ दुगाकण्ड परिसर में विश्व हिन्दू महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम पूज्य आदित्यनाथ योगी महाराज जी के जन्मोत्सव का पांचवा दिन हिन्दू राष्ट्रियता का पर्याय है में आज हम सभी को गौरक्षा प्रदेश अध्यक्ष चौधरी योगेंद्र सिंह जी प्रदेश उपाध्यक्ष , मनोज प्रजापति मातृशक्ति प्रदेश उपाध्यक्ष, डा. रमा सिंह एवं मंडल प्रभारी दिनेश चन्द्र पांडेय की गौरवान्वित उपस्थिति में आयोजित हुआ। जिलाध्यक्ष सच्चिदानंद सिंह की अध्यक्षता में गोरक्षा प्रकोष्ठ के जिला संयोजक संजय पाण्डेय, गोरक्षा महानगर प्रभारी विपिन सेठ ,गोरक्षा महानगर अध्यक्ष आशुतोष ओझा , गोरक्षा वरिष्ठ उपाध्यक्ष धर्मेन्द्र मिश्रा , गोरक्षा महामंत्री विद्यासागर उपाध्यक्ष ,गोरक्षा अग्रज मंत्री करण शंकर पाण्डेय,जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष सिधार्थ कुमार सिंह ,जिला मीडिया प्रभारी विशाल पांडेय, जिला उपाध्यक्ष ब्रजेश कुमार सिंह, जिला संयोजक संजय श्रीवास्तव ,जिला महामंत्री मनोज श्रीवास्तव, अश्वनी सिंह संगठन मंत्री , उदय पांडेय जिला मंत्री, राजेश श्रीवास्तव , वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुकेश सिंह , जितेंद्र सिंह, महानगर अध्यक्ष राजीव शरण , महानगर प्रभारी श्री संतोष सोनकर, विपिन विश्वकर्मा सहित सभी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष उपस्थित रहे।

लगातार १५वें माह म्यूचुअल फंड को मिला बढ़िया निवेश

मई में इक्विटी म्यूचुअल फंड में किया गया 18529 करोड़ रुपए का शुद्ध निवेश

नई दिल्ली (भाषा) ।

ऊँची मुद्रास्फीति और रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण धरेलू शेयर बाजारों में उतार-चढ़ाव के बावजूद मई में इक्विटी म्यूचुअल फंड में 18,529 करोड़ रुपए का शुद्ध निवेश हुआ है। यह लगातार 15वां महीना है, जब इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश का प्रवाह सकारात्मक रहा है। सिस्टैटैक इन्वेस्टमेंट प्लान (एसआईपी) के प्रति निवेशकों का

आकर्षण लगातार बढ़ रहा है जिसके चलते इक्विटी म्यूचुअल फंड में लगातार निवेश आ रहा है। उद्योग निकाय एसोसिएशन आफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया (एएमएफ) ने वृहस्पतिवार को कहा कि मई का यह आंकड़ा अप्रैल में इक्विटी म्यूचुअल फंड में हुए 15,890 करोड़ रुपए के शुद्ध निवेश की तुलना में अधिक है।



योजनाओं में शुद्ध रूप से निवेश मार्च, 2021 से ही बढ़ रहा है। यह निवेशकों के बीच ऐसी योजनाओं को लेकर सकारात्मक धारणा को दर्शाता है। इससे पहले इन योजनाओं से जुलाई, 2020 से लेकर फरवरी, 2021 के दौरान लगातार 46.79 करोड़ रुपए की राशि निवेशी गई थी। वहीं, एसआईपी के जरिए निवेश मई, 2022 में बढ़कर 12,286 करोड़ रुपए पर पहुंच गया, जो अप्रैल में 11,863 करोड़ रुपए था। सितम्बर, 2021 में 10,351 करोड़ रुपए के निवेश के बाद यह लगातार नौवां महीना है जब एसआईपी में निवेश का प्रवाह 10,000 करोड़ रुपए से अधिक रहा है। इक्विटी के अलावा गोल्ड एक्सचेंज ट्रेड्ड कोष (ईटीएफ) में अलांच्यु माह के दौरान 203 करोड़ रुपए का शुद्ध निवेश आया।

भाजपा नेता श्रवण कुमार अग्रहर्षि ने जनसंपर्क कर,गिनाई मोदी सरकार की उपलब्धियां

प्रखर संत कबीर नगर। भारतीय जनता पार्टी द्वारा बृथ संपर्क अभियान के माध्यम से जिले के सभी बूथों पर जनसंपर्क जारी है। यह जनसंपर्क 1 जून से 14 जून तक चलेगा। बृथ संपर्क अभियान के माध्यम से भाजपा पदाधिकारीयों, कार्यकर्ता जनपद के सभी बूथों पर केंद्र सरकार के ऐतिहासिक 08 वर्ष पूर्ण होने पर सरकार की योजनाओं का पत्रक घर-घर वितरित कर रहे हैं। लोगों से संपर्क कर रहे हैं। मोदी सरकार के ऐतिहासिक कार्यकाल को लेकर आम जनमानस के बीच चर्चा हो रही है। जिसको लेकर वरिष्ठ भाजपा नेता श्रवण कुमार अग्रहर्षि सेमरियावां मंडल के बृथ संख्या 62, 63 पर डोर टू डोर जनसंपर्क किया। जन संपर्क करते हुए श्रवण ने आम जनमानस के बीच मोदी जी की योजनाओं का खूब बखान किया। उन्होंने कहा कि मोदी जी की सारी योजनाएं गरीबों के लिये समर्पित है। बुनियादी सुविधाएं देते हुए मोदी सरकार ने गरीबों को उनके जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन लाने का कार्य किया है। कार्यक्रम में राम पुरुषोत्तम गुप्ता, अशोक कुमार चौरसिया, भोला कनौजिया, राजकुमार, संदीप कुमार, एजाज अहमद, फूल चंद शर्मा, चंपा देवी, कृष्ण कुमार, अफजल हुसैन खान जिला मंत्री इत्फरसंख्यक प्रकोष्ठ, राम भूत, संजय कुमार,अमंद कुमार, अन्नू कुमार, गोपाल कुमार, अजय कुमार,ग्राम प्रधान छपिया माफ़ी अल्पकाल अहमद सहित भारी संख्या में लोग उपस्थित रहे।

कोविड टीकाकरण जागरूकता अभियान का श्रीगणेश

प्रखर सहजनावा गोरखपुर। पाली विकासखंड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र टरापांर में गुरूवार अपराह्न बाद, कोविड टीकाकरण अभियान का शुभारंभ करते हुए टीकाकरण सखी टीम के वाहन मुस्कान एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रखवा किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि- जो लोग कोविड टीकाकरण से किसी कारण वश वंचित रह जाए हैं, उनका टीकाकरण पूर्ण कराया जा सके। कार्यक्रम में स्वास्थ्य परिवार के अतिरिक्त भारी संख्या में क्षेत्र की महिलाएं मौजूद थीं। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहें जिला समन्वयक- प्रियंका सिंह एवं ब्लाक प्रभारी ज्ञान प्रकाश श्रीवास्तव ने कहा कि टीका-उन सभी गर्भवती महिलाएं जिनके पेट में बच्चा होने के कारण टीकाकरण नहीं हो पाया था, या फिर उन किशोर- किशोरियां का जिनका टीकाकरण किसी भी प्रकार से रह गया था, चिन्हित कर उन्हें टीका करण के लिए प्रेरित करना है। कोई नागरिक यदि टीकाकरण से छूट जाएगा,तो खुद के लिए ही नहीं औरों के लिए भी खतरा बन सकता है। कार्यक्रम की सफलता आप सब के सहयोग से निश्चित होगी। टीकाकरण प्रचार सखी टीम द्वारा अपने मकसद को हासिल करने के लिए प्रत्येक गांवों का दौरा करेंगी, जिससे छूटे लोगों को चिन्हित कर उनका टीकाकरण कराया जा सके। उक्त अवसर पर ममता पाठक, डॉ शुभम, डॉ शशिकांत गौतम, अभिनव प्रताप सिंह, ज्ञान प्रकाश सिंह, दाग दाग डॉक्टर विवेन्द्र सिंह, प्रियंका सिंह, संगीता यादव, सुभान, नीलम सिंह, दिनेश चंद्र यादव, शकुंतला देवी, मीना राज, विमला, आशा देवी, रं भावती देवी, श्वेता, साधना समेत काफी संख्या में लोग मौजूद थे।

विधि दुलहन से वैदिक मंत्रों के बीच हुआ हनुमान जी की प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा

प्रखर दुल्लहपुर गाजीपुर। गंगा दशहरा के पावन पर्व पर अति प्राचीन स्वयंभू शिव मंदिर "गंगा महादेव जमसड़ा" पर गंगा महादेव मंदिर के महंथ व फलहारी महाराज श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर रामदास जी के प्रिय शिष्य श्री श्री 1008 फलहारी महाराज मंगल दास जी के कर कमलों द्वारा समस्त क्षेत्र के कल्याण व शान्ति के लिए जगत माता आदिशक्ति माता दुर्गा जी व भूत भावन भगवान भोलेशनाथ के अंशवतार महावीर हनुमान जी की नव प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा शास्त्र विधि द्वारा आचायं व महंथ श्री श्री 1008 सियाराम दास जी महाराज राधे कृष्ण मंदिर पकवा इनार व चारणसी के पूज्य आचार्य जी की उपस्थिति में आज सम्पन्न हुआ,जिसमे समस्त क्षेत्र वासियों के साथ अमरजीत यादव'छेदी काका',जंगली यादव, हरिनाथ यादव,अमित कुमार पटेल"गोलू", अरुण यादव, अंकित यादव,मुन्ना सिंह,अमरजीत यादव,सुबास यादव सिपाही,आदि भक्तजन उपस्थित रहे।

लगातार १५वें माह म्यूचुअल फंड को मिला बढ़िया निवेश

मई में इक्विटी म्यूचुअल फंड में किया गया 18529 करोड़ रुपए का शुद्ध निवेश

नई दिल्ली (भाषा) ।

ऊँची मुद्रास्फीति और रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण धरेलू शेयर बाजारों में उतार-चढ़ाव के बावजूद मई में इक्विटी म्यूचुअल फंड में 18,529 करोड़ रुपए का शुद्ध निवेश हुआ है। यह लगातार 15वां महीना है, जब इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश का प्रवाह सकारात्मक रहा है। सिस्टैटैक इन्वेस्टमेंट प्लान (एसआईपी) के प्रति निवेशकों का

आकर्षण लगातार बढ़ रहा है जिसके चलते इक्विटी म्यूचुअल फंड में लगातार निवेश आ रहा है। उद्योग निकाय एसोसिएशन आफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया (एएमएफ) ने वृहस्पतिवार को कहा कि मई का यह आंकड़ा अप्रैल में इक्विटी म्यूचुअल फंड में हुए 15,890 करोड़ रुपए के शुद्ध निवेश की तुलना में अधिक है।



योजनाओं में शुद्ध रूप से निवेश मार्च, 2021 से ही बढ़ रहा है। यह निवेशकों के बीच ऐसी योजनाओं को लेकर सकारात्मक धारणा को दर्शाता है। इससे पहले इन योजनाओं से जुलाई, 2020 से लेकर फरवरी, 2021 के दौरान लगातार 46.79 करोड़ रुपए की राशि निवेशी गई थी। वहीं, एसआईपी के जरिए निवेश मई, 2022 में बढ़कर 12,286 करोड़ रुपए पर पहुंच गया, जो अप्रैल में 11,863 करोड़ रुपए था। सितम्बर, 2021 में 10,351 करोड़ रुपए के निवेश के बाद यह लगातार नौवां महीना है जब एसआईपी में निवेश का प्रवाह 10,000 करोड़ रुपए से अधिक रहा है। इक्विटी के अलावा गोल्ड एक्सचेंज ट्रेड्ड कोष (ईटीएफ) में अलांच्यु माह के दौरान 203 करोड़ रुपए का शुद्ध निवेश आया।

गांव में सफाई कार्य को लेकर

उप जिलाधिकारी से शिकायत

प्रखर सहजनावा गोरखपुर। विकासखंड पाली के पट्टी धर्मदास के ग्राम प्रधान पति महेंद्र यादव ने गांव में सफाई कार्य ना होने को लेकर गुरूवार को उप जिला अधिकारी सहजनावा से शिकायत किया और बताया कि गांव में सफाई कर्मी नहीं आता है, जिस कारण गांव की सफाई व्यवस्था पूरी तरह बिगड़ गई है। बताया जाता कि- गांव में बनो गलियां सफाई के अभाव में घास-फूस से पट गई हैं,जिस कारण गंद घानी गांव के बने रास्ते पर बिखरा पड़ा है। लोगों को आवागमन में भी परेशानी हो रही है। प्रधान पति महेंद्र यादव का कहना है कि सफाई को लेकर हम जिम्मेदारों से भी कई बार शिकायत किया, परंतु कोई सुनवाई नहीं हुई। उप जिलाधिकारी से गुजारिश की गई है कि मामले की जांच कर कारवाई करने की कृपा करें।

डिजिटल लोन देने वाले ऐप पर कसेगा शिकंजा

इन ऐप को नियमों के दायरे में लाने की तैयारी कर रहा रिजर्व बैंक

कई ऐप आरबीआई के पास हैं पंजीकृत अवैध रूप से काम कर रहे हैं कई ऐप

मुंबई (भाषा) ।

भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने वृहस्पतिवार को कहा कि केंद्रीय बैंक जल्द ही डिजिटल ऋण मंचों के लिए नियामकीय रूपरेखा लेकर आएगा। गौरतलब है कि इन मंचों में कई अनधिकृत और अवैध हैं। डिजिटल कई ऐप के कुछ परिचालकों द्वारा कर्ज लेने वालों के उत्पीड़न के कारण उनके बीच कथित रूप से आत्महत्या के मामले बढ़ रहे हैं। दास ने भारतीय व्यापार (अतीत, वर्तमान और भविष्य) विषय पर एक व्याख्यान देते हुए कहा, 'मुझे लगता है कि बहुत जल्द हम एक व्यापक नियामकीय ढांचे के साथ सामने आएंगे, जो डिजिटल मंचों के जरिए ऋण देने के संबंध में हमारे सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने में सक्षम होगा। इन मंचों में कई अनधिकृत और बिना पंजीकरण के चल रहे हैं। मुझे कहना चाहिए कि ये अवैध हैं।' इस व्याख्यान का आयोजन 'आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत' केंद्रीय अप्रत्यक्ष



कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने किया था। दास ने बुधवार को कहा था कि बिना पंजीकरण के डिजिटल ऋण देने वाले ऐप से करना चाहिए। उन्होंने यह स्पष्ट करते हुए कहा कि केंद्रीय बैंक केवल उसके साथ पंजीकृत संस्थाओं के खिलाफ कार्रवाई करेगा। गवर्नर ने कहा कि आरबीआई की वेबसाइट पर उन ऐप की एक सूची है, जो उसके पास पंजीकृत हैं। उन्होंने कहा कि कई राज्यों में पुलिस ने कानून के प्रवधानों के अनुसार गलत काम करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की है। दास ने प्रेस वार्ता में कहा, 'इस तरह के ऐप का उपयोग करने वाले सभी लोगों से राम विनम अनुरोध है कि पहले यह जांच लें कि ऐप आरबीआई के साथ पंजीकृत है या नहीं। अगर ऐप पंजीकृत है, तो मैं आपको आश्वासन देता हूं केंद्रीय बैंक किसी भी गलत काम के मामले में तुरंत कार्रवाई करेगा।' गवर्नर ने वृहस्पतिवार को कहा कि आरबीआई आर्थिक प्रगति के लिए मौजूदा और उभरते व्यवसायों की भूमिका को मान्यता देता है। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यवसाय को दीर्घकालिक सफलता सीधे तौर पर उसके कामकाज की गुणवत्ता, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और जोखिम नियंत्रण की मजबूती तथा संगठनात्मक संस्कृति से जुड़ी होती है।

- डिजिटल ऐप कर रहे लोन ग्राहकों का उत्पीड़न
- कई ग्राहक हुए हैं आत्महत्या के लिए मजबूर
- ऐसे ऐप के बारे में पुलिस में शिकायत दे ग्राहक
- कई राज्यों में हुई ऐसे ऐप के विरुद्ध कार्रवाई

कर्ज लेने वाले ग्राहकों को किसी भी तरह की समस्या होने पर स्थानीय पुलिस से संपर्क

खबर संक्षेप



श्रृंखला से बाहर होने से राहुल निराश

नई दिल्ली। सलामी बल्लेबाज लोकाश राहुल अंतिम समय में ग्रींडन की चोट के कारण दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ घरेलू सरजमा पर पांच मैचों की टी20 अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला में भारत की अगुआई नहीं कर पाने से 'निराश' है।

राहुल गुरुवार से शुरू हो रही पूरी श्रृंखला से बाहर रहेंगे। उनकी दाईं ग्रींडन में ट्रेनिंग सत्र के दौरान चोट लगी। राहुल ने ट्वीट करके कहा, 'इससे स्वीकार करना मुश्किल है लेकिन मैंने एक और चुनौती को स्वीकार किया। घरेलू सरजमा पर पहली बार टीम की अगुआई नहीं कर पाने से निराश हूँ लेकिन बाहर से साथी खिलाड़ियों का पूरा समर्थन करूँगा।'

इवान्स नॉटिंगम ओपन के क्वार्टर फाइनल में नॉटिंगम

शीर्ष वरीय डेन इवान्स ने नॉटिंगम ओपन में दूसरे खिताब की ओर कदम बढ़ाते हुए बुधवार को इटली के थॉमस फाबियानो को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई।

ब्रिटेन के दूसरे नंबर के खिलाड़ी और 2019 के चैंपियन इवान्स ने 7-5, 6-0 से जीत दर्ज की। इवान्स अपने दौर में स्विट्जरलैंड के मार्क एंड्रिया हसलर से पिछड़े जिनहोंने ब्रिटेन के डेन कॉक्स को 6-2, 4-6, 6-2 से रखाया। महिला वर्ग में चौथी वरीय चीन की शुआई झेंग ने दूसरे दौर के मुकाबले में जोडनी बुराज को 6-2, 7-6 (4) से हराया।

चेन्नईयन ने सौरव को टीम से जोड़ा

चेन्नई। दो बार के इंडियन सुपर लीग फुटबॉल चैंपियन चेन्नईयन एफसी ने अपनी मिडफील्ड को मजबूत करने के लिए सौरव दास से दो साल का करार किया है। भारत के शीर्ष फुटबॉल क्लब में शामिल तीन क्लब मुंबई सिटी, मुंबई बंगाल और मोहन बागान का हिस्सा रह चुके दास की मौजूदगी से चेन्नईयन एफसी को मिडफील्ड मजबूत होगी। टीम के पास मिडफील्ड में कप्तान अनिरुद्ध थापा पहले से ही मौजूद हैं जबकि क्लब ने कुछ दिनों पहले युवा जिनेश्वर सिंह को भी अपने साथ जोड़ा है।

हसनैन का गेंदबाजी एक्शन सही: आईसीसी

काराची। पाकिस्तान के युवा तेज गेंदबाज मोहम्मद हसनैन के गेंदबाजी एक्शन को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने हरी झंडी दे दी है जिससे वह सभी स्तर के क्रिकेट में खेल सकते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने गुरुवार को कहा कि हसनैन का गेंदबाजी एक्शन वैध पाया गया है और फिर से हार्ड जांच में उनकी कोहनी आईसीसी के वैध गेंदबाजी नियमों के अंतर्गत 15 डिग्री के अंदर मुड़ी पाई गई।

लीच दूसरे टेस्ट मैच के लिए फिट

नॉटिंगम। इंग्लैंड के स्पिनर जैक लीच न्यूजीलैंड के खिलाफ शुरूवार से शुरू हो रहे दूसरे क्रिकेट टेस्ट के लिए फिट घोषित किए गए हैं। पिछले हफ्ते पहले टेस्ट के दौरान सिर में चोट लगने के बाद लीच को कनकेशन से जुड़े नियमों से गुजरना पड़ा था। नॉटिंगम के ट्रेटब्रिज में होने वाले दूसरे टेस्ट के लिए गुरुवार को इंग्लैंड ने अपनी टीम में कोई बदलाव नहीं किया। इंग्लैंड लगातार दूसरा टेस्ट जीतकर श्रृंखला अपने नाम करने के इरादे से उतरेगा। लाइवर्स में पहले टेस्ट के पहले दिन बाउंड्री के समीप गिरने से लीच के सिर में चोट लगी थी।

द.अफ्रीका ने सात विकेट से जीता टी-20 मैच भारत का टूटा वर्ल्ड रिकार्ड बनाने का सपना

एजेंसी नई दिल्ली

भारतीय क्रिकेट टीम साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज का पहला मैच जीतकर विश्व रिकार्ड बनाने का इरादा लेकर उतरी थी। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 में सबसे बड़ा स्कोर खड़ा किया। 20 ओवर में 4 विकेट पर टीम ने 211 रन का स्कोर बनाया। 19.1 ओवर में 3 विकेट खोकर साउथ अफ्रीका ने जीत दर्ज की। भारत को यहां हार मिली इसके लिए जिम्मेदार हाल में खत्म हुए इंडियन प्रीमियर लीग को दिया जा सकता है।

भारत ने टॉस हारने के बाद इशान किशन के अर्धशतक और हार्दिक पांड्या के मैच फिनिशिंग पारी के दम पर बड़ा स्कोर खड़ा किया। 48 गेंद पर इशान ने 76 रन बनाए, श्रेयस अय्यर ने 27 गेंद पर 36 रन बनाए जबकि कप्तान रिषभ पंत ने 31 रन की पारी खेली। 211 रन का स्कोर साउथ अफ्रीका के खिलाफ सबसे बड़ा स्कोर रहा और दिल्ली के मैदान पर टी20 का सबसे बड़ा स्कोर रहा।



भारत के पिछले 13 टी20 मैच

Table with 4 columns: क्र, खिलाफ, परिणाम, कप्तान. Lists India's T20 matches against various teams and their outcomes.

आइपीएल में रहा मिलर का जलवा



भारत के खिलाफ तूफानी पारी खेलकर मैच को बदलने वाले मिलर ने आइपीएल में खेलकर ही अपनी लय हासिल की थी। फ्रेंचाइजी टीम गुजरात टाइटंस की तरफ से खेलते हुए इस बल्लेबाज ने ना सिर्फ खोए फार्म के वापस हासिल किया बल्कि टीम के लिए मैच विनर बनकर उभरे। इस सीजन उन्होंने 16 मैच में 481 रन बनाए जिसमें 94 रन की मैच विनिंग नाबाद पारी भी शामिल रही।

रिकार्ड 12 जीत के साथ संयुक्त रूप से शीर्ष पर भारत

भारतीय टीम ने इस मैच को गंवाने के साथ ही एक बड़ा वर्ल्ड रिकार्ड बनाने का मौका भी गंवा दिया है। इस मैच से पहले टीम इंडिया ने लगातार 12 टी20 इंटरनेशनल में जीत हासिल की थी, अगर यहां पर जीत मिल जाती तो टीम इंडिया लगातार 13 टी20 इंटरनेशनल जीतने वाली पहली टीम होती। अभी तक यह रिकार्ड 12 जीत के साथ संयुक्त रूप से अफगानिस्तान-रोमानिया और भारत के नाम था।



किलर मिलर ने बदला खेल

81 रन के स्कोर पर साउथ अफ्रीका की टीम ने क्विंटन डिकाक के रूप में अपना तीसरा विकेट गंवाया। 8.4 ओवर में यह विकेट गंवाने के बाद टीम को 68 गेंद पर 131 रन की जरूरत थी। मिलर 31 गेंद पर 64 रन की पारी खेल मैच को पलट दिया। उन्होंने रासी वान डेर डुसैन के साथ मिलकर 131 रन की अटूट साझेदारी निभाई। इस बल्लेबाज ने 46 गेंद पर 75 रन की पारी खेल टीम के जीत तक पहुंचाया।

मुंबई ने उत्तराखंड को 725 रन से रौंदा बनाया सबसे बड़ी जीत का वर्ल्ड रिकार्ड



एजेंसी नई दिल्ली

मुंबई ने गुरुवार को यहां रणजी ट्रॉफी क्वार्टर फाइनल के चौथे दिन उत्तराखंड को 725 रन के विशाल अंतर से रौंदकर प्रथम श्रेणी क्रिकेट में सबसे बड़े अंतर से जीत दर्ज करने का नया विश्व रिकार्ड बनाया। मुंबई ने न्यू साउथ वेल्स के 1930 में बनाए 92 साल पुराने शेफील्ड शीलड के रिकार्ड को तोड़ा। न्यू साउथ वेल्स ने तब क्वींसलैंड को 685 रन से हराया था। रणजी ट्रॉफी में रनों के लिहाज से सबसे बड़ी जीत का पिछला रिकार्ड बंगाल के नाम था जिसने 1953-54 में ओडिशा को 540 रन से हराया था। मुंबई के विश्व रिकार्ड से एक दिन पहले बंगाल ने एक अन्य क्वार्टर फाइनल में झारखंड के खिलाफ एक पारी में सर्वाधिक नौ बल्लेबाजों के 50 या इससे अधिक रन बनाने का रिकार्ड बनाया। मुंबई की टीम अब सेमीफाइनल में उत्तर प्रदेश से भिड़ेगी।

फर्स्ट क्लास : सबसे बड़ी जीत

Table with 4 columns: रन, जीत, हार, रण. Lists first-class cricket records.

मुंबई का मैच में प्रदर्शन

मुंबई ने मुंबई की ओर से सुवेद परकर ने पहली पारी में डबल सेंचुरी जमाई, जबकि सरफराज खान ने शानदार 153 रन बनाए। इस पारी में अरमान जाफर (60) और शांभू गुलाबी (59) के बल्ले से अर्धशतक निकले। टीम की दूसरी पारी में ओजयट यशस्वी जायसजाल ने 103, पूर्वी शी ने 72 और आदित्य तारे ने 57 रन बनाए। गुलाबी ने मुंबई को सात विकेट दिए। उन्हें पहली पारी में 4 और दूसरी में तीन विकेट मिले।

3 ने झटके 3-3 विकेट

मुंबई की ओर से अनुभव तीज गेंदबाज धराल कुराकर्णी ने 11 रन देकर तीन विकेट घटकाए जबकि ब्राए के रिपनर शंभू गुलाबी (15 रन पर तीन विकेट) और आफ रिपनर तनुज कोशन (13 रन पर तीन विकेट) ने भी तीन-तीन विकेट घटकाए। उत्तराखंड की ओर से शिवम खुर्ना (नाबाद 25) और कुणाल चंदेला (21) ही बचेरे अंक में पहुंचे। उत्तराखंड के पांच बल्लेबाज खाता खोलने में भी नाकाम रहे। परकर को मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया।

मुंबई ने बनाए थे 794 और 261 रन

पहले दिन से ही दबाव बनाने वाले 4 बार के रणजी चैंपियन मुंबई ने अपनी दूसरी पारी तीन विकेट पर 261 रन बनाकर घोषित की और उत्तराखंड को 794 रन का लक्ष्य दिया। मुंबई ने पराक्रम कर रहे सुवेद परकर (252) के दोहरे शतक की बढौलत पहली पारी आठ विकेट पर 647 रन बनाकर घोषित की थी। पहली पारी में 114 रन पर परेटे हुए उत्तराखंड दूसरी पारी में सिर्फ 69 रन ही बना सका।

बाबर का वर्ल्ड रिकार्ड, 17वें शतक से अमला और कोहली को पछाड़ा

पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के बीच खेले गए वनडे मैच में बाबर आजम ने फिर से अपनी बल्लेबाजी का लोहा मनवाया। कप्तान बाबर आजम ने अपने करियर का 17वां शतक जमाया। इस शतक के बदौलत बाबर आजम ने विराट कोहली के रिकार्ड को तोड़ दिया। दाएं हाथ का ये बल्लेबाज अब वनडे में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाला कप्तान बन गया। बाबर ने करियर की 85वीं पारी में यह कारनामा करते हुए दक्षिण अफ्रीका के पूर्व सलामी बल्लेबाज हाशिम अमला को पीछे छोड़ दिया। अमला ने 98 पारियों में 17 वनडे इंटरनेशनल शतक ठोके थे। इस ऐतिहासिक पारी के दौरान बाबर आजम ने कप्तान के तौर पर सबसे तेज 1000 रन बनाने का वर्ल्ड रिकार्ड भी अपने नाम किया, जो पहले टीम इंडिया के पूर्व कप्तान विराट कोहली के नाम दर्ज था। बाबर आजम ने 1000 रन बनाने के लिए 13 इनिंग लीं और वह वर्ल्ड क्रिकेट में बतौर कप्तान सबसे तेज यह कारनामा करने वाले कप्तान बन गए हैं। इससे पहले यह रिकार्ड भारतीय पूर्व कप्तान विराट कोहली के नाम था जिन्होंने बतौर कप्तान 17 पारियों में सबसे तेज 1,000 रन बनाए थे।

नेशनस लीग : बेल्जियम ने पोलैंड को 6-1 से रौंदा, नीदरलैंड भी जीता

बेल्जियम ने बुधवार को पोलैंड के खिलाफ एक गोल से पिछड़ने के बाद जोरदार वापसी करते हुए नेशनस लीग फुटबॉल टूर्नामेंट में 6-1 से धमाकेदार जीत दर्ज की। दिग्गज खिलाड़ी रॉबर्ट लेवानडोवस्की ने पोलैंड के लिए 76वां गोल दागकर अपनी टीम को बढ़त दिलाई लेकिन बेल्जियम ने इसके बाद लिफेंट्रो स्टाइल (73वें और 80वें मिनट) के दो और एक्सल विटसल (42वें मिनट), केविन डि ब्रून (59वें मिनट), लिफेंड्र डेनडोनकर (83वें मिनट) तथा लोइस ओपेंडा (90 फसस तीन मिनट) के एक-एक गोल की बदौलत आसान जीत दर्ज की। बेल्जियम के खिलाड़ियों ने इस तरह शुक्रवार को नीदरलैंड के खिलाफ 1-4 की हार के कारण लंबे सत्र के बाद टूर्नामेंट में खेलने को लेकर टीम की प्रतिबद्धता पर उठाए जा रहे सवाल का जवाब भी दे दिया। ग्रुप डी के ही एक अन्य मैच में नीदरलैंड ने इंजरी टाइम के चौथे मिनट में वोट वेगहोस्ट के हैडर से दागे गोल से वेल्स को 2-1 से हराया और टीम शीर्ष पर बनी हुई है।

इंडोनेशिया मास्टर्स : सिंधू और सेन क्वार्टर फाइनल में

जकार्ता। दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधू और विश्व चैंपियनशिप के कांस्य पदक विजेता लक्ष्य सेन ने गुरुवार को यहां अपने-अपने मुकाबले जीतकर इंडोनेशिया मास्टर्स सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। लक्ष्य ने दुनिया के 13वें नंबर के खिलाड़ी डेनमारक के रास्मस गेल्के को 54 मिनट में 21-18, 21-15 से हराया। महिला एक्ल सिंधू को हालांकि थोड़ा संघर्ष करना पड़ा। उन्होंने इंडोनेशिया की वेगेरिया मरिस्ता तुजजंग को एक घंटे तक चले दूसरे दौर के मुकाबले को 23-21, 20-22, 21-11 से अपने नाम किया। हालांकि बी सुमित रेड्डी और अश्विनी पोनप्पा का सफर निश्चित युगल में समाप्त हो गया जिन्हें दूसरे दौर के मुकाबले में चीन के झेन सि चेई और हुआंग या कियिंग की दूसरी वरीयता प्राप्त जोड़ी से 18-21, 13-21 से पराजय का सामना करना पड़ा।

स्वस्तिका बाहर, कोर्ट पहुंचने वाली तीसरी खिलाड़ी

एजेंसी नई दिल्ली

स्वस्तिका घोष गुरुवार को राष्ट्रमंडल खेलों के लिए भारतीय टेबल टेनिस टीम में शामिल नहीं किए जाने पर दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख करने वाली तीसरी खिलाड़ी बन गई। उनके पिता और कोच संदीप घोष ने कहा कि उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय में एक 'रिट याचिका' दायर की है और इसकी सुनवाई शुरूवार की होगी। संदीप घोष ने कहा, 'वह चयन मानदंड के हिसाब से चौथे नंबर की खिलाड़ी है और उसे टीम में होना चाहिए।'



चयनकर्ताओं ने मानुष को पुरुष टीम में शामिल नहीं किया जो भी मानदंड के हिसाब से शीर्ष चार में थे। भारतीय टेबल टेनिस महासंघ (टीटीएफआई) का कामकाज देख रही प्रशासकों की समिति ने मंगलवार को अंतिम टीम की घोषणा की थी। मानुष के मामले की भी शुरूवार की सुनवाई की जाएगी। स्वस्तिका (19 वर्ष) को मनिका बत्रा, चितले, रीथ रिथ्या और श्रीजा अकुला वाली संशोधित टीम में 'स्टैंडबाय' के तौर पर रखा गया था। पुरुष टीम में अनुभवी शरत कमल, जी साधियान, हरमोत देसाई, सानिल शेट्टी के साथ मानुष 'स्टैंडबाय' हैं।

व्या है चयन का मापदंड चयन मानदंड में घरेलू प्रदर्शन (50 प्रतिशत), अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन (30 प्रतिशत) और चयनकर्ताओं के निर्णय (20 प्रतिशत) को देखा जाता है लेकिन पिछले कुछ समय में यह काफी सुविधियों में रखा क्योंकि कई खिलाड़ियों ने न्याय के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया। सीओए ने इस प्रतिशत को अगले सत्र से 40-40-20 कर दिया है जिसमें शीर्ष 32 में शामिल खिलाड़ी स्वतः ही टीम में प्रवेश कर लेता। एक पूर्व भारतीय खिलाड़ी ने जोर्नलीयता की शर्त पर कहा कि चयन मानदंड ओलंपिक और राष्ट्रमंडल खेलों जैसे बड़े टूर्नामेंट के लिए ही होना चाहिए।

हाल ही में एक महिला साइकिल चालक द्वारा अपने कोच पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने के बाद अब राष्ट्रीय स्तर की महिला नाविक (सेलर) ने टीम के कोच पर जर्मनी यात्रा के दौरान उन्हें 'असहज' महसूस कराने का आरोप लगाया है। एक सूत्र से मिली जानकारी के मुताबिक शिकायतकर्ता ने इस मामले में कई बार भारतीय याचिका महासंघ (वाईएआई) से संपर्क किया लेकिन जब उसे कोई जवाब नहीं मिला, तो उसने बीती रात भारतीय खेल प्राधिकरण से हस्तक्षेप करने की मांग की। साई ने अब दिन के अंत तक महासंघ से रिपोर्ट मांगी है, जिसमें पूछा गया है कि क्या नाविक ने उनसे पहले संपर्क किया था, और अगर ऐसा है तो मामले को गंभीरता से क्यों नहीं लिया गया। साई के सूत्र ने कहा, 'साई को एक महिला नाविक से शिकायत मिली है कि जर्मनी के दौर पर एक कोच उसे असहज महसूस करा रहा था। नाविक ने दावा किया कि उसने इस मामले में पहले महासंघ से संपर्क किया था, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलने के बाद उसने साई का दरवाजा खटखटाया।'


राष्ट्रमंडल खेल: भारतीय टेबल टेनिस महासंघ ने की है टीम की घोषणा

ऐतिहासिक तालाब का हुआ जीर्णोद्धार

प्रखर डेस्क। आमजन की बेहतरी के लिए सदैव प्रतिबद्ध रहने वाले नगर विकास, ऊर्जा एवं वैकल्पिक ऊर्जा मंत्री ए. के. शर्मा ने वाराणसी में स्थित तालाब के पुनरुद्धार का आदेश नगर निगम के अधिकारियों को दिया है। इसके बाद नगर निगम ने युद्धस्तर पर इस तालाब को वापस पुरानी स्थिति में लौटाने का काम शुरू कर दिया है। पिछले दो दिन में पचासों ट्रैक्टर मलबा हटाया जा चुका है। इस काम में दो जेसीबो और आधा दर्जन ट्रैक्टर



Sonia Pond



लगे हैं। दिन में भीषण गर्मी को देखते हुए सभी कार्य रात में कराये जा रहे हैं। नगर निगम के मुख्य अभियंता ने बताया कि तालाब का विकास कार्य दो चरणों में कराया जाएगा। प्रथम चरण में तालाब के मलबे को हटा कर इसे गहरा किया जायेगा। दूसरे चरण में इसके सुंदरीकरण का कार्य कराया जाएगा। बताया कि तालाब का अतिक्रमण हटा कर चारों तरफ की बाउंड्रीवाल को दुरुस्त किया जाएगा। इसके बाद चारों तरफ लोहे की फ्रिल से फेंसिंग करायी जाएगी। अतिक्रमण

का आदेश नगर निगम के अधिकारियों को दिया है। इसके बाद नगर निगम ने युद्धस्तर पर इस तालाब को वापस पुरानी स्थिति में लौटाने का काम शुरू कर दिया है। पिछले दो दिन में पचासों ट्रैक्टर मलबा हटाया जा चुका है। इस काम में दो जेसीबो और आधा दर्जन ट्रैक्टर लगे हैं। दिन में भीषण गर्मी को देखते हुए सभी कार्य रात में कराये जा रहे हैं। नगर निगम के मुख्य अभियंता ने बताया कि तालाब का विकास कार्य दो चरणों में कराया जाएगा। प्रथम चरण में तालाब के मलबे को हटा कर इसे गहरा किया जायेगा। दूसरे चरण में इसके सुंदरीकरण का कार्य

हटाने के लिये राजस्व की टीम से तालाब का सर्वे कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि तालाब का कुछ इस तरह विकास कार्य कराया जाएगा जिससे इसमें सिर्फ वर्षा का जल संचय हो। प्यास में बने शौचालय की नाली का मुंह दूसरी तरफ मोड़ दिया जाएगा। उन्होंने जनता से अपील की

पुनीत सागर अभियान के अंतर्गत एनसीसी के कैडेटो ने दिया स्वच्छता का संदेश

प्रखर केराकत जौनपुर। कुटीर पीजी कॉलेज चक्के में लेफ्टिनेंट कर्नल मंजीत प्रभारी अधिकारी 98 यूपी. बटालियन जौनपुर के निदेशानुसार भारत सरकार द्वारा

लेफ्टिनेंट डॉ. चित्रसेन गुप्त ने कहा कि आजादी के 75 वं अमृत महोत्सव में पुनीत सागर मनाया जा रहा है। सभी तालाबों व बड़े जलस्रोतों की धाराएँ कहीं न कहीं



पुनीत सागर अभियान के तहत कैडेटो ने दिया स्वच्छता का संदेश जानकारी के अनुसार 98 यूपी. बटालियन एनसीसी के कैडेटो ने सतराम हडिया

बाबा एवं आसपास के जलाशयों में कचड़े एवम प्लास्टिक को निकालकर लोगों को तालाबो व अन्य जलस्रोतों को स्वच्छ रखने का संदेश दिया। पुनीत सागर अभियान को सफल बनाने के लिए जलस्रोतों को गंदा न करने की अपील की। इस अवसर पर

जाकर गंगा में ही मिलती हैं। ऐसे में हमें सभी तालाबों को स्वच्छ रखना ही होगा। जीवन के लिए प्राणवायु के बाद जल का ही स्थान आता है। तालाबों के साथ ही अन्य नदियों को स्वच्छ रखने की अपील की। इस अवसर पर सभी कैडेट्स उपस्थित रहे।

आवकारी विभाग की कार्यवाही में लगभग 90 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद

प्रखर गोरखपुर। जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर जनपद गोरखपुर में आबकारी विभाग द्वारा चलाए जा रहे प्रवर्तन अभियान के अंतर्गत आबकारी निरीक्षक सेक्टर 02 राकेश कुमार त्रिपाठी एवं प्रशिक्षु आबकारी निरीक्षक शुभम राय तथा रामेंद्र सिंह के साथ अवैध/कच्ची शराब के विभिन्न सौंदध स्थलों पर दी जा रही दबिश के क्रम में आज दिनांक 10/06/22 को थाना राजघाट के अन्तर्गत चकरा अख्वल अमुरतानी में दबिश की कार्यवाही की गयी। दबिश के दौरान 90 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर लगभग 5000 किग्रा लहन नष्ट कर 20 बट्टियों को तोड़ा गया एवं आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत 02 अधिव्योग पंजीकृत किया गया।

जाकर गंगा में ही मिलती हैं। ऐसे में हमें सभी तालाबों को स्वच्छ रखना ही होगा। जीवन के लिए प्राणवायु के बाद जल का ही स्थान आता है। तालाबों के साथ ही अन्य नदियों को स्वच्छ रखने की अपील की। इस अवसर पर सभी कैडेट्स उपस्थित रहे।

जाकर गंगा में ही मिलती हैं। ऐसे में हमें सभी तालाबों को स्वच्छ रखना ही होगा। जीवन के लिए प्राणवायु के बाद जल का ही स्थान आता है। तालाबों के साथ ही अन्य नदियों को स्वच्छ रखने की अपील की। इस अवसर पर सभी कैडेट्स उपस्थित रहे।

जाकर गंगा में ही मिलती हैं। ऐसे में हमें सभी तालाबों को स्वच्छ रखना ही होगा। जीवन के लिए प्राणवायु के बाद जल का ही स्थान आता है। तालाबों के साथ ही अन्य नदियों को स्वच्छ रखने की अपील की। इस अवसर पर सभी कैडेट्स उपस्थित रहे।

ब्रम्हाराष्ट्र एकम अध्यात्म गोसेवा मिशन ट्रस्ट व गंगा सेवा समिति के तत्वावधान में मनाया गया माँ गंगा का प्राकट्य महोत्सव

प्रखर पूर्वांचल वाराणसी। गंगा दशहरा के उपलक्ष्य में ब्रम्हाराष्ट्र एकम अध्यात्म गोसेवा मिशन ट्रस्ट व गंगा सेवा समिति के तत्वावधान में काशी के अस्सी घाट स्थित माँ गंगा का प्राकट्य महोत्सव मनाया गया जिसके आयोजन प्रमुख श्री पंकज शास्त्री जी महाराज आयोजन सचिव सचिन मिश्र, संयोजिका प्रिया मिश्रा व सह आयोजन बलराम मिश्र रहे। आज माँ गंगा को छयन भोग लगाया गया साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति सुश्री प्रियांश्री यादव द्वारा कथक नृत्य व डॉ. अमलेशु शुक्ल द्वारा भजन गीतों से किया गया। तत्पश्चात सभी भक्तगण व श्रद्धालुओं में प्रसाद वितरण कर इस भव्य आयोजन को पूर्ण किया

गया। आज मुख्य अतिथि के रूप में आयुष्योप टण्डन (पूर्व कैबिनेट मंत्री), विशिष्ट अतिथि में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रविन्द्र जायसवाल, पूर्व राज्य मंत्री डॉ. नीलकंठ तिवारी, राकेश पांडेय (अपर जिला जज), सेवा भारती प्रांतीय अध्यक्ष श्री राहुल सिंह इत्यादि लोग मौजूद रहे।
माँ गंगा का इस धरा पे अवतरण - सगर नामक एक राजा को कई वर्षों बाद दिव्य रूप से साठ हजार पुत्रों की प्राप्ति हो गयी। एक दिन राजा सगर ने अपने साम्राज्य की समृद्धि के लिए एक अनुष्ठान करवाया। साथ ही एक अश्व उस अनुष्ठान का एक अभिन्न हिस्सा था जिस इंद्र ने ईर्ष्यांश चुरा लिया। सगर ने उस अश्व को खोज के लिए

अपने सभी पुत्रों को पृथ्वी के चारों तरफ भेज दिया। सभी वा अश्व उन्हें पाताललोक में ध्यामगन कपिल ऋषि के निकट मिला। पुत्रों द्वारा वह मानते हुए कि उस अश्व को कपिल ऋषि ने चुराया है, वे उनका अपमान करने लगे और उनकी तपस्या को भंग कर दिया। ऋषि ने कई वर्षों में पहली बार अपने नेत्रों को खोला और सगर के बेटों को देखा। इस दृष्टिपात से वे सभी के सौ सौ हजार पुत्र जलकर भस्म हो गए। अंतिम संस्कार न किये जाने के कारण सगर के पुत्रों की आत्माएं प्रेत बनकर विचरने लगीं। जब सगर के एक वंशज भगीरथ ने इस दुर्भाग्य के बारे में सुना तो उन्होंने प्रतिज्ञा की कि वे गंगा को पृथ्वी पर लायेंगे ताकि

उसके जल से सगर के पुत्रों के पाप धुल सकें और उन्हें मोक्ष प्राप्त हो सके। भगीरथ ने गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए ब्रह्मा जी की तपस्या की। ब्रह्मा जी मान गए और गंगा को आदेश दिया कि वह पृथ्वी पर जाये और वहां से पाताललोक जाये ताकि भगीरथ के वंशजों को मोक्ष प्राप्त हो सके। गंगा को यह काफी अपमानजनक लगा और उसने तय किया कि वह पूरे वेग के साथ स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरेगी और उसे बहा ले जायेगी। तब भगीरथ ने घबराकर शिवजी से प्रार्थना की कि वे गंगा के वेग को कम कर दें। गंगा पूरे अहंकार के साथ शिव के सिर पर गिरने लगी। लेकिन शिव

जी ने शांति पूर्वक उसे अपनी जटाओं में बांध लिया और केवल उसकी छोटी-छोटी धाराओं को ही बाहर निकलने दिया। शिव जी का स्पर्श प्राप्त करने से गंगा और अधिक पवित्र हो गयी। पाताललोक की तरफ जाती हुई गंगा ने पृथ्वी पर बहने के लिए एक अन्य धारा का निर्माण किया ताकि आभोगे लोगों का उद्धार किया जा सके। गंगा एकत्रार्थ ऐसी नदी है जो तीनों लोकों में बहती है- स्वर्ग, पृथ्वी, तथा पाताल। इसलिए संस्कृत भाषा में उसे त्रिपथगा कहा जाता है। भगीरथ के प्रयासों से गंगा के पृथ्वी पर आने के कारण उसे भगीरथी भी कहा जाता है। पृथ्वी पर आने के बाद गंगा जब भगीरथ की तरफ बह रही थी, उसके पानी के

वेग ने काफी हलचल पैदा की और जाहू नामक ऋषि की साधना तथा उनके चतों को नष्ट कर दिया। इससे क्रोधित तरेज आलम एवम आयोजन गुफरान अहमद फिजियोथेरेपी स्ट द्वारा किया गया था जिसमें क्षेत्र के काफी संख्या में लोगों ने ब्लड डोनेशन किया। जनपद मुख्यालय से राजेन्द्र यादव के नेतृत्व में 10 कई संख्या में टीम आई और सुरक्षित तरीके से ब्लड डोनेशन कैम्प को सफलता दिया। इसके लिए ब्लड कलेक्शन एवं ट्रांसफेडेशन वैन आई जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश द्वारा व्यवस्था की गई थी जिसमें क्षेत्रीय लोगों को ब्लड डोनेशन करने के पश्चात अली कदर खान मेमोरियल ब्लड डोनेशन कैम्प द्वारा प्रमाण पत्र भी वितरित किया गया, कार्यक्रम में मुख्य रूप से रिजवान अहमद खान, लईक अहमद, मोहम्मद खालिद, गुफरान, परवेज शाह, इमरान अहमद, इसमें लगभग 60 से ज्यादा लोग सम्मिलित हुए लेकिन 31 लोगों ने रक्तदान किया। जनपद से आइए टीम प्रभारी राजेंद्र यादव ने बताया कि यह पुनीत कार्य करना चाहिए, आयोजक गुफरान अहमद बताया कि आज जूमे की नमाज में यह कार्यक्रम किया, लेकिन आने वाले समय में इसके और बड़े पैमाने पर किया जाएगा, और हमारी कोशिश है कि जादा से जादा लोगों को रक्तदान के लिए प्रेरित करें जिससे कि ऐसे लोगों को इसका लाभ मिल सके, रक्त की कमी की वजह से धरती को न गवानी पड़े।

कार्यालय- ग्राम पंचायत- नौगावा, विकास खण्ड- तमकुहीराज, जनपद- कुशीनगर

क्र. सं.	परियोजना का नाम	मात्रा (प्रकल्प के अनुसार)	शिद्दूत रेट के अनुसार (निम्नतम दर पर)
1	टाहल्य, शुल्भ/सामुदायिक शौचालय		
2	सोमेट, बालू, मिट्टी, छड़		
3	ईट, हेइडपम रिबोर		
4	पलबन्दी सामग्री, खेल कूद के मैदान पर खेल कूद की सामग्री		
5	सर्वमर्सिनल, विद्युत तार		
6	इष्टरलॉकिंग टाहल्य सामग्री गोवंश आश्रय केन्द्र पर पूसा अन्य		
7	डेस्क, बेच फर्नीचर/आलमारी		
8	ग्रीन बोर्ड पन्त, अन्वेष्टी स्थल		
9	पूसा, वृक्षारोपण (पौधा कम से कम 6 फीट का होना चाहिए)		
10	केन्द्रस्थान ज्वार्डेट, ऑनगवाड़ी केन्द्र		
11	नाली निर्माण सामग्री, पंचायत भवन		
12	खईना, सोखना, सोलर लाईट/स्ट्रीट लाइट		
13	योग्या/व्यायाम सामग्री, माडर्न वृक्षारोपण, ह्यूम पॉप, सी.सी.टीवी कैमरा ए.सी.पी. बोर्ड, दिशा सूचक/साईन बोर्ड/ शिलापट्ट या फेन्सग्रास		
14	अन्य समस्त प्रकार की निर्माण सामग्री		
15	मिट्टी दुलाई		

ग्राम प्रधान पवन गुप्ता

कार्यालय- ग्राम पंचायत- पड़री विशुन दयाल, विकास खण्ड- तमकुहीराज, जनपद- कुशीनगर

क्र. सं.	परियोजना का नाम	मात्रा (प्रकल्प के अनुसार)	शिद्दूत रेट के अनुसार (निम्नतम दर पर)
1	टाहल्य, शुल्भ/सामुदायिक शौचालय		
2	सोमेट, बालू, मिट्टी, छड़		
3	ईट, हेइडपम रिबोर		
4	पलबन्दी सामग्री, खेल कूद के मैदान पर खेल कूद की सामग्री		
5	सर्वमर्सिनल, विद्युत तार		
6	इष्टरलॉकिंग टाहल्य सामग्री गोवंश आश्रय केन्द्र पर पूसा अन्य		
7	डेस्क, बेच फर्नीचर/आलमारी		
8	ग्रीन बोर्ड पन्त, अन्वेष्टी स्थल		
9	पूसा, वृक्षारोपण (पौधा कम से कम 6 फीट का होना चाहिए)		
10	केन्द्रस्थान ज्वार्डेट, ऑनगवाड़ी केन्द्र		
11	नाली निर्माण सामग्री, पंचायत भवन		
12	खईना, सोखना, सोलर लाईट/स्ट्रीट लाइट		
13	योग्या/व्यायाम सामग्री, माडर्न वृक्षारोपण, ह्यूम पॉप, सी.सी.टीवी कैमरा ए.सी.पी. बोर्ड, दिशा सूचक/साईन बोर्ड/ शिलापट्ट या फेन्सग्रास		
14	अन्य समस्त प्रकार की निर्माण सामग्री		
15	मिट्टी दुलाई		

ग्राम प्रधान सत्युग प्रसाद

कार्यालय- ग्राम पंचायत- पगरा पड़री, विकास खण्ड- तमकुहीराज, जनपद- कुशीनगर

क्र. सं.	परियोजना का नाम	मात्रा (प्रकल्प के अनुसार)	शिद्दूत रेट के अनुसार (निम्नतम दर पर)
1	टाहल्य, शुल्भ/सामुदायिक शौचालय		
2	सोमेट, बालू, मिट्टी, छड़		
3	ईट, हेइडपम रिबोर		
4	पलबन्दी सामग्री, खेल कूद के मैदान पर खेल कूद की सामग्री		
5	सर्वमर्सिनल, विद्युत तार		
6	इष्टरलॉकिंग टाहल्य सामग्री गोवंश आश्रय केन्द्र पर पूसा अन्य		
7	डेस्क, बेच फर्नीचर/आलमारी		
8	ग्रीन बोर्ड पन्त, अन्वेष्टी स्थल		
9	पूसा, वृक्षारोपण (पौधा कम से कम 6 फीट का होना चाहिए)		
10	केन्द्रस्थान ज्वार्डेट, ऑनगवाड़ी केन्द्र		
11	नाली निर्माण सामग्री, पंचायत भवन		
12	खईना, सोखना, सोलर लाईट/स्ट्रीट लाइट		
13	योग्या/व्यायाम सामग्री, माडर्न वृक्षारोपण, ह्यूम पॉप, सी.सी.टीवी कैमरा ए.सी.पी. बोर्ड, दिशा सूचक/साईन बोर्ड/ शिलापट्ट या फेन्सग्रास		
14	अन्य समस्त प्रकार की निर्माण सामग्री		
15	मिट्टी दुलाई		

ग्राम प्रधान राजकुमारी देवी

संक्षिप्त खबरें

अग्रहरी समाज के राष्ट्रीय संगठन मन्त्री बने - गणेश प्रसाद अग्रहरी जनपद में दौड़ी खुशी की लहर



प्रखर मिजापुर। नगर में अग्रहरी समाज की बैठक आहूत कि गयी जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष अग्रहरी राष्ट्रीय महामंत्री अशोक अग्रहरी द्वारा कि गयी। जिसमें अग्रहरी समाज के द्वारा गणेश प्रसाद अग्रहरी को राष्ट्रीय संगठन मंत्री बनाये जाने पर माल्यार्पण कर मिठाई खिलाकर स्वागत किया गया गणेश प्रसाद अग्रहरी द्वारा संगठन का आधार व्यक्त करते हुए कहा कि। 26जून 2022 रविवार को होने वाले कार्यकारिणी बैठक व महासम्मेलन कि तैयारियों के विषय में चर्चा करते हुए आग्रह किया कि सभी अग्रहरी समाज के साथियों माताओं एवं बहनों और युवा साथियों से आग्रह किया कि मैं विंध्यवासिनी कि पावन धरती पर अग्रहरी समाज का राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक एवं महासम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है आप सभी बंधुओं से निवेदन है 26 जून को विंध्याचल की धरती पर पहुंचकर समाज को एकता को प्रदर्शित कर समाज में पिछले पायदान के बंधुओं के उत्थान के लिए सामाजिक एकता के लिए चर्चा में भाग लेकर के समाज को मजबूत बनाने में सहयोग प्रदान करें सभी लोगों से आग्रह किया बैठक में अग्रहरी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष अग्रहरी, राष्ट्रीय महामंत्री अशोक अग्रहरी, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष घनश्याम अग्रहरी, रूपनारायण अग्रहरी आदि उपस्थित रहे रहें।

तथ्यों के विश्लेषण की प्रक्रिया की ही शोध है - प्रो आनंद शंकर



प्रखर डेस्क। ईश्वर शरण पी जी कालेज के राजनीतिक विज्ञान विभाग द्वारा आयोजित समर स्कीूल के चौथे दिन ईश्वर शरण पीजी कॉलेज के प्राचार्य आदर्शीय प्रोफेसर आनंद शंकर सिंह जी ने शोध छात्रों का प्रबोधन किया। अपने व्याख्यान में उन्होंने शोध प्रविधि से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डाला एवं शोध को व्यवस्थित रूप में किस प्रकार व्यवहार में उतारा जाए इस पर अपने विचार व्यक्त किये। अन्य महत्वपूर्ण वक्तों के रूप में उपस्थित डा. अजय श्रीवास्तव ने भी शोध प्रविधि से संबंधित अपने विचार व्यक्त किए। समर कैम्प का निर्देशन राजनीति विज्ञान विभाग के अध्यक्ष डॉ. शिव सिंह ने ही है, अन्य सहयोगी के रूप में राजनीति विज्ञान विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डा. विवेक राय एवं डा. अखिलेश शांडिल जी मौजूद रहे।

मोहम्मदपुर अंतर्गत ग्राम शिवराजपुर में किया गया रक्तदान शिविर का आयोजन



प्रखर गंभीरपुर/आजमगढ़। ब्लॉक मोहम्मदपुर के अंतर्गत आने वाले शिवराजपुर ग्राम सभा में शुक्रवार की जूमे की नमाज के समय, अली कदर खान मेमोरियल ब्लड डोनेशन कैम्प के तत्वावधान में प्राइमरी स्कूल शिवराजपुर पर ब्लड डोनेशन कैम्प का आयोजन किया गया कार्यक्रम के मुख्य अतिथि तरेज आलम एवम आयोजन गुफरान अहमद फिजियोथेरेपी स्ट द्वारा किया गया था जिसमें क्षेत्र के काफी संख्या में लोगों ने ब्लड डोनेशन किया। जनपद मुख्यालय से राजेन्द्र यादव के नेतृत्व में 10 कई संख्या में टीम आई और सुरक्षित तरीके से ब्लड डोनेशन कैम्प को सफलता दिया। इसके लिए ब्लड कलेक्शन एवं ट्रांसफेडेशन वैन आई जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश द्वारा व्यवस्था की गई थी जिसमें क्षेत्रीय लोगों को ब्लड डोनेशन करने के पश्चात अली कदर खान मेमोरियल ब्लड गुप डोनेशन कैम्प द्वारा प्रमाण पत्र भी वितरित किया गया, कार्यक्रम में मुख्य रूप से रिजवान अहमद खान, लईक अहमद, मोहम्मद खालिद, गुफरान, परवेज शाह, इमरान अहमद, इसमें लगभग 60 से ज्यादा लोग सम्मिलित हुए लेकिन 31 लोगों ने रक्तदान किया। जनपद से आइए टीम प्रभारी राजेंद्र यादव ने बताया कि यह पुनीत कार्य करना चाहिए, आयोजक गुफरान अहमद बताया कि आज जूमे की नमाज में यह कार्यक्रम किया, लेकिन आने वाले समय में इसके और बड़े पैमाने पर किया जाएगा, और हमारी कोशिश है कि जादा से जादा लोगों को रक्तदान के लिए प्रेरित करें जिससे कि ऐसे लोगों को इसका लाभ मिल सके, रक्त की कमी की वजह से धरती को न गवानी पड़े।

दूदी सड़कों को लेकर ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन

प्रखर संत कबीर नगर। हल्की सी बारिश होने के कारण सड़कों पर जगह-जगह बने गहरे गड्ढे हादसे का सबब बन रहे हैं। सड़क से उड़ने वाली धूल के कारण न केवल हादसे हो रहे हैं बल्कि वाहनों को भी काफी नुकसान पहुंच रहा है। और बीस मिनट के रास्ते में एक घंटे का समय लग रहा है। मिटनी चौराहे पर लोगों ने सड़क की बदहाली को लेकर हाथ उठकर प्रदर्शन किया। साथ ही सभी ने कहा कि जल्द ही दूदी सड़कों का मरम्मत नहीं हो जाता तो कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। मौजूद लोगों ने बताया कि लोक निर्माण विभाग और जनप्रतिनिधि सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं। विभाग की लापरवाही कहें या फिर उदासीनता गिटिन से लेकर ओनविलाई तक मार्ग पर सड़क में गड्ढे हैं या फिर रस्ते में सड़क बनी है। जहां वाहन एक गड्ढे से बचाने के प्रयास में दूसरे गड्ढे में चले जाते हैं और हादसे का शिकार हो रहे हैं। कुछ ऐसा ही हाल चौराहों और आसपास के गांव क्षेत्रों में जाने वाले मार्गों का है। गिटिन चौराहे पर सड़क में बने गहरे-गहरे गड्ढे लगातार हादसे का सबब बन रहे हैं। जिससे आए दिन बाइक सवार और बड़े वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। लेकिन विभाग की उदासीनता के चलते इन गड्ढों को नहीं भरा जा रहा है। अत्यधिक वाहनों के आवागमन के साथ ही इन गड्ढों से धूल उड़ती है जिससे धुंध छा जाने के कारण पीछे चलने वाले वाहनों को सामने वाला वाहन और गहरे गड्ढे दिखाई नहीं देते।

डीएम का फरमान बेअसर, बनरसिया गांव में धड़ल्ले से हो रहा है अमृत सरोवर योजना का दुरुपयोग

प्रखर चंदौली। जिला के शहाबगंज विकासखंड अंतर्गत बनरसिया गांव में अमृत सरोवर योजना के तहत तालाब सुंदरीकरण के कार्य में नियमों की जमकर अनदेखी की जा रही है। पिछले कई दिनों से तालाब के भीटे पर मिट्टी समतलीकरण का कार्य जेसीबी से कराया जा रहा है। जबकि शासन तालाब सुंदरीकरण का कार्य मनरेगा मजदूर को लगाकर कराने का फरमान जारी किया हुआ है। डीएम संजीव सिंह भी इसके लिए अधिकारियों को हिदायत दे चुके हैं। अपने निर्देश में उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि तालाबों का कार्य मनरेगा के तहत मस्टररोल में शामिलों से कराया जाए, इसके बाद भी नियमों की अनदेखी कर मनमाने तरीके से जेसीबी से तालाब का कार्य हो रहा है। आपको बता दें कि शासन के निर्देशानुसार तालाब के सुंदरीकरण का कार्य अमृत सरोवर योजना के तहत कराए जाने के लिए विधिवत कार्य का शुभारंभ विशिष्ट जनों के हाथों द्वारा किया जाना है। जिसे मस्टर रोले में मजदूरों द्वारा पूरा कराया जाना है। मगर बनरसिया गांव के राजकीय



हाईस्कूल के समीप स्थित तालाब को अमृत सरोवर योजना के तहत सुंदरीकरण किए जाने में शासन के निर्देशों का कतई पालन नहीं किया गया। क्षेत्र पंचायत निधि से स्ट्रीमेंट तैयार कराकर टी एस और जी एस कराने के बाद कार्य को बगैर रोकेटोक जेसीबी लगाकर धड़ल्ले से कराया जा रहा है। जबकि प्रदेश सरकार की ओर से अमृत सरोवर योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में तालाबों के सुंदरीकरण का कार्य कराने को लेकर जौर दिया जा रहा है, ताकि जल संरक्षण किया जा सके। साथ ही तालाबों का लाभ ग्रामीणों को मुहैया कराया जा सके। इसके लिए जिला प्रशासन को

ग्रामीण क्षेत्रों में तालाबों पर हुए अतिक्रमण को हटाने के साथ ही उसके सुंदरीकरण व तालाबों की खुदाई का कार्य मनरेगा मजदूरों से कराने का निर्देश दिया गया है। इसी क्रम में शहाबगंज विकासखंड के बनरसिया गांव में तालाब का सुंदरीकरण कार्य पिछले 1 सप्ताह से किया जा रहा है। शासन के निर्देशानुसार 31 जुलाई तक तालाब के सुंदरीकरण का कार्य पूरा किया जाना है, लेकिन यहां तालाब सुंदरीकरण के कार्य में नियमों की जमकर धजिया उड़ाई जा रही है। इस संदर्भ में खंड विकास अधिकारी दिनेश कुमार को बनरसिया गांव के तालाब

सुंदरीकरण कार्य के शुभारंभ की खूद जानकारी नहीं है, पूछने पर उन्होंने बताया कि यदि बनरसिया गांव में तालाब सुंदरीकरण का कार्य जेसीबी लगाकर कराया जा रहा है तो इसकी जांच कराई जाएगी। वहीं सीडीओ अजितेंद्र नारायण कहते हैं

कि तालाब सुंदरीकरण के कार्य में जेसीबी से कराने का अनुबंध नहीं है, अगर कहीं भी जेसीबी से तालाब सुंदरीकरण का कार्य किया जा रहा है तो उसकी जांच कराकर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बनरसिया गांव में बीडीओ को

भेजकर सत्यता की जांच कराई जाएगी, यदि प्रमाणित होता है तो उससे संबंधित किसी को बख्शा नहीं जाएगा। सीडीओ के फरमान के बाद अवैध ढंग से तालाब सुंदरीकरण का कार्य कराने वालों में हड़कंप मचा हुआ है।

अमदर टिप्पणी से नाराज मुस्लिम समुदाय के लोगों ने दुकान बंद कर जताया विरोध

प्रखर खेतासराय (जौनपुर)। सुरक्षा की दृष्टि से अतिस्वेदनशील खेतासराय कस्बा में पुलिस के पहरे में जुमा की नमाज अदा की गई। शाहगंज, खेतासराय में पैगम्बर-ए इस्लाम पर की गई टिप्पणी से नाराज लोगों ने अपने प्रतिष्ठान बंद कर शांतिपूर्ण ढंग से अपना विरोध दर्ज कराया। हालांकि कोई संगठन या अन्य लोगों का प्रोटेस्ट सड़क पर नहीं दिखा सुरक्षा के लिहाज सीओ और एसडीएम क्षेत्र में चक्रमण करते दिखे। भाजपा प्रवक्ता रही नुपुर शर्मा, नवीन जिंदल द्वारा की गई टिप्पणी से कानपुर में हुए उपद्रव के बाद प्रदेश में सतकता बढ़ा दी। गुरुवार को थानों में धर्मगुरुओं, इमामों और प्रबुद्ध नागरिकों के साथ प्रशासन ने बैठक करके चेता दिया था कि कानून को हाथ में लेने वालों को बख्शा नहीं जाएगा किसी तरह की गतिविधि दिखे तो पुलिस को जरूर सूचित करें। जुमा की नमाज के बाद शाहगंज सेंट्रल में किसी तरह का विरोध सामने नहीं आया। लेकिन मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अपना प्रतिष्ठान बन्द कर अपना शांतिपूर्ण विरोध दर्ज कराया। शाहगंज, खेतासराय, मानीकला समेत ग्रामीण क्षेत्रों में दुकान पर ताला लटकता रहा डीएसपी शाहगंज अंकित कुमार ने बताया कि क्षेत्र शांति रहा। सेंट्रल के खेतासराय, शाहगंज, खुदहन और सरपतहां की पुलिस को मुस्लिम रहने को कहा गया था किसी तरह का विरोध प्रदर्शन नजर नहीं आया। एसडीएम और में स्वयं इलाकों में पुलिस बल के साथ चक्रमण कर रहा था।



पुलिस मुठभेड़ में दो इनामिया बदमाश को लगी गोली, एक फरार

प्रखर केराकत जौनपुर। जिले में अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई का क्रम जारी रखते हुए गुरुवार की देर रात को पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई मुठभेड़ के दौरान दो इनामिया बदमाश को लगी गोली जबकि एक अपराधी मौका देख फरार होने में रहा सफल। दोनों अपराधियों को ट्रामा सेंटर वाराणसी में भर्ती कराने के बाद इलाज कराया जा रहा है। गौरतलब हो कि केराकत क्षेत्र के बेलावल पुल के पास में गुरुवार की रात में केराकत पुलिस, स्वाव व सर्विलांस टीम जौनपुर के साथ संविद्ध वाहनों की चौकंग किया जा रहा था उसी मध्य एक मोटरसाइकिल पर तीन संविद्ध व्यक्ति आते हुए दिखाई दिये जिन्हें रोकने का प्रयास किया गया जवाब

में पुलिस बल को जान से मारने की नियत से फायर करते हुए भागने लगे। जिसके बाद पुलिस ने आत्मरक्षा में फायर किया गया जिसमें एक बदमाश तो फायरिंग



करते हुए भाग निकला, जबकि एक बदमाश के घेरे में और दूसरे बदमाश के घेरे में लगी गोली। वहीं थोड़ी देर के बाद फायरिंग रुकी तो पुलिस ने देखा कि दो बदमाश चाल पड़े थे। नाम पूछने पर एक ने अपना नाम

एसपी यादव निवासी सरपतहां तो दूसरा कमर रशीद निवासी निजामाबाद आजमगढ़ बताया। दोनों बड़े व इनामिया बदमाश थे। पुलिस ने दोनों को सामुदायिक स्वास्थ्य

केन्द्र में भर्ती कराया, जहां से दोनों को ट्रामा सेंटर वाराणसी रेफर कर दिया गया। दोनों के पास से पिस्टल व तमचा बरामद हुआ। एक के खिलाफ विभिन्न थानों 25 तो दूसरे के खिलाफ 15 मुकदमे दर्ज हैं।

भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूंका, सपा एमएलसी लाल बिहारी यादव का फुतला

प्रखर खानपुर गाजीपुर। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष एवं सपा एमएलसी लाल बिहारी यादव के ज्ञानवापी प्रकरण पर दिए गए विवादित बयान पर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को थाना क्षेत्र के अनीनी बाजार में नेता प्रतिपक्ष का फुतला दहन कर विरोध दर्ज कराया। आरोप है विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष ने शुक्रवार के ज्ञानवापी प्रकरण पर दिए अपने बयान में ज्ञानवापी में मिले शिवलिंग को पत्थर का टुकड़ा करार दिया। बयान के सोशल मीडिया पर वायरल होते ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में उबाल आ गया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कृष्ण मोहन पाण्डेय उर्फ रानू के नेतृत्व में सपा एमएलसी लाल बिहारी यादव का फुतला दहन



कर आक्रोश जताया। भाजपा नेता माधवेंद्र सिंह ने कहा कि ज्ञानवापी प्रकरण न्यायालय में लंबित है। करोड़ों लोगों की आस्था ज्ञानवापी में मिले शिवलिंग से जुड़ी है। ऐसे समय विधान परिषद में नेता विरोधी दल का गैर जिम्मेदाराना बयान हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला है। उन्होंने विवादित एवं अमर्यादित टिप्पणी के

लिए माफी मांगनी चाहिए। प्रदर्शन करने वालों में मंडल अध्यक्ष सैदपुर पश्चिमी श्यामकुंवर मौर्य, मंडल महामंत्री तपन सिंह पूर्व मंडल अध्यक्ष सभाजित विश्वकर्मा, बाबूलाल यादव, मनोज सिंह रघुवंशी, चंद्रशेखर, पंकज, चन्दन राजभर, विकास चौबे, मिडिया प्रभारी संतोष भारद्वाज, होशियार यादव आदि मौजूद रहे।

मंडल के प्रभारी मंत्री रविंद्र जायसवाल का अहरौरा में हुआ जौर दार स्वागत



प्रखर अहरौरा, मिजापुर। मंडल के प्रभारी मंत्री रविंद्र जायसवाल सोनभद्र के दौर पर हैं। ऐसे में सोनभद्र जाते समय रविंद्र जायसवाल अहरौरा में स्थित राजू जायसवाल के घर पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने उनका जौरदार स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने अहरौरा क्षेत्र के व्यापारियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद स्टॉप शुल्क पंजीयन मंत्री ने कहा कि क्षेत्र में उद्योग को लेकर अपार संभावनाएं हैं। मंत्री ने कहा ऐसे में सरकार के द्वारा अब उद्योग को लेकर सक्टिवाई का भी लाभ दिया जा रहा है। ऐसे में आप सभी

उद्योग लगाए और रोजगार के अवसर भी प्रदान करें। प्रभारी मंत्री के साथ साथ पूर्व स्नातक एमएलसी केदारनाथ सिंह व उद्योग विभाग के विंध्याचल वाराणसी के निदेशक उमेश जी मौजूद रहे। पूर्व नगर अध्यक्ष ओमप्रकाश केसरी, महेंद्र सिंह नगर महामंत्री भाजपा जय किशन जयसवाल, पूर्व नगर अध्यक्ष अंजनी जयसवाल, व व्यापार प्रकोष्ठ अमित शाह, एवं मनोज शाह ही उपस्थित रहे साथ में भारी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता जयसवाल समाज के पदाधिकारी उपस्थित रहे।

विवाहिता की फंदे से लटकती लाश मिली, हत्या का आरोप

प्रखर गोरखपुर। पति, ससुर व जेठानी के खिलाफ दहेज हत्या का केस दर्ज खजनी खजनी थाना क्षेत्र के मेउडी गांव में गुरुवार दोपहर घर में ही विवाहिता की फंदे से लटकती लाश मिली। ससुराल वालों के अनुसार विवाहिता ने स्वयं खुदकुशी कर ली है जबकि मायके वालों ने दहेज हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दिया है पुलिस ने तहरीर के आधार पर पति, ससुर व जेठानी तीन लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। खजनी थाना क्षेत्र के मेउडी गांव निवासी देवानंद यादव की शारी पांच बर्ष पहले बेलीपार के कट्या गांव के रहने वाले राजकुमार यादव की बहन मनीता से हुई थी गुरुवार सुबह 9 बजे खाना खाने के बाद मनीता अपने कमरे में आराम करने व पीत अपने इलाज के लिए मेडिकल कालेज चले गए कुछ देर बाद मनीता का 3 साल का इकलौता बच्चा रोते हुए मां को खोजने लगा। अदर से कमरा बंद होने के कारण स्वजन खिड़की से देखा तो मनीता फंदे से लटक की मिली।

मूक बधिर टेराकोटा कलाकार बटोर रहा प्रशंसा

प्रखर गोरखपुर। जिले के औरंगाबाद के भरवालिया गांव में देवी प्रसाद जो कि मुकबधिर हैं वे टेरा कोटा के कलाकार हैं जो कि अलग अलग तरीके के मिट्टी के बर्तन मूर्तियां एम साज सज्जा के लिए सामान बनाते हैं गोरखपुर महोत्सव में एवं अन्य काय प्रदर्शन स्थलों पर विक्रमादित्य नारायण सिंह एवं उनके टीम द्वारा देवी प्रसाद मिट्टी के बर्तन मूर्ति खिलौने आदि की प्रदर्शनी लगाकर उनका उत्पादवर्धन करवाया एवं आर्थिक सहयोग प्राप्त करवाया गया गोरखपुर महोत्सव में इनके हाथ से बने गौतम बुद्ध की मूर्ति को उत्तर प्रदेश के यह सबसे मुख्मंत्रि योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने देखा एवं सराहा। देवी प्रसाद ने बताया कि विक्रमादित्य एवं उनकी टीम द्वारा चक वक पर उनके जैसे अनेकों दिव्यांग कलाकारों के लिए

प्रोत्साहित प्रोत्साहन कार्य किए जाते हैं एक जिला एक उत्पाद के तहत विक्रमादित्य के ही सहयोग से अपने टेरा कोटा को लखनऊ के



एक मेले में ले जाकर प्रदर्शित करने के साथ ही अभी तक का सबसे ज्यादा मुनाफा पाए थे, और आज के प्रदर्शनी में उनका बहुत अहम भूमिका रहा है जिसके लिए विक्रमादित्य के सदैव आभारी रहेंगे

। हर प्रदर्शनी में विक्रमादित्य नारायण सिंह के टीम में कहकशा सिद्दीकी, प्रदोश्वरी सिंह, अमित चौधरी, आकाश कुमार की

टेराकोटा प्रदर्शनी में काम भूमिका रहती है वे उनके सामान को ले आने से प्रदर्शनी मनवाने तक एवं उनके सामान को दूसरी जगह जवाना तक में मौसम अमानता कोटा कलाकार के साथ रहते हैं।

पिंडरा ब्लॉक पर जनप्रतिनिधि व अधिकारी बने घराती, किये बारातियों का स्वागत

प्रखर पिंडरा वाराणसी। पिंडरा ब्लॉक मुख्यालय मंगरी पर शुक्रवार को पिंडरा व हरहुआ ब्लॉक के 119 जोड़ों की शादी पारंपरिक ढंग से मंत्रोच्चारण के बीच हुई। जिसके साक्षी बने विधायक, बीडीओ और परिजन। इस दौरान पूरा ब्लॉक परिसर मंगलगीतो से गुंजायमान रहा। सुबह 11 बजे चला कार्यक्रम दोपहर डेढ़ बजे तक चला। ब्लॉक परिसर में विधायक डॉ अवधेश सिंह ने नवविवाहित जोड़े को आशीर्वाद देते हुए उपहार भी दिया। बीडीओ/उपजिलाधिकारी विकास चंद ने बताया कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत पिंडरा ब्लॉक के 63 में से 62 व हरहुआ ब्लॉक से 57 जोड़े शादी के बंधन में बंधे और उन्हें 35 हजार नगद (खाते में) और 16 हजार रुपये के उपहार स्वरूप वर्तन, पंखा, मोबाइल, कुकर व अन्य सामग्री दी गई। इस दौरान बीडीओ हरहुआ धर्मद्वेद्वेदी, एडीओ पंचायत अशोक



चौबे, एडीओ समाज कल्याण अनुराग मिश्रा व पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ एम जे निगम व सेक्रेटरी घराती बने मेहमानों को खाने से लेकर पानी की

व्यवस्था करने व आवाभगत में जुटे रहे। इस दौरान कई ग्राम प्रधान भी एम जे निगम से निबंध रूप से अच्छे बोल्टेज से आपूर्ति हो सकेगी।

गर्मी से नवविवाहित जोड़े परेशान दिखे। धूप से बचने के लिए पेड़ की छावों में खड़े रहे।

एग्रो पार्क की आपूर्ति 9 घण्टे रहेगी टप

प्रखर पिंडरा वाराणसी। करखियाव स्थित औद्योगिक क्षेत्र में 12 जून को विद्युत उपकेंद्र में मरम्मत व नया पैनेल का कार्य होने के कारण 9 घण्टे आपूर्ति टप रहेगी। उक्त जानकारी देते हुए एसडीओ राहुल सिंह ने बताया कि 33/11 केवी विद्युत उपकेंद्र यूपीएसआइडीसी करखियाव एग्रो पार्क में स्थापित उपकेंद्र में 12 जून रविवार को एक नया 11 केवी का नया पैनेल स्थापित करने हेतु विद्युत आपूर्ति सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक बाधित रहेगा। उक्त कार्य के होने से निबंध रूप से अच्छे बोल्टेज से आपूर्ति हो सकेगी।

दुकानें बंद कर जताया विरोध, जुमे की नमाज पर सतर्क रही पुलिस

प्रखर शाहगंज (जौनपुर)। इस्लाम धर्म के पैगम्बर मोहम्मद साहब के ऊपर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले भाजपा प्रवक्ता को पार्टी ने तो बाहर का रास्ता दिखा दिया। कई अरब देशों ने कड़ा विरोध जताते हुए भारतीय उत्पादों का बहिष्कार करने की भी चेतावनी दी थी जिसपर सरकार ने जवाब भी दिया था। कथित टिप्पणी मामले में देश के अलग अलग हिस्सों में भारी विरोध भी हुआ। मगर इसकी आग अभी ठंडी होने के नाम नहीं ले रही है।

शुक्रवार को नगर के व्यस्त मार्केट गुप्ता गली, चूड़ी मुहल्ला, कोतवाली रोड पर कुछ मुसलमानों ने अपनी दुकानें बंद कर अपना विरोध जाहिर किया हालांकि बन्दी पूरी तरह असफल रही। कोई संगठन या कमेटी सामने नहीं आया। बन्द कराने। जिससे मुस्लिम दुकानदारों में उहापोह की स्थिति बनी रही। कुछ लोग हवा हवाई

बातों को लेकर स्वेच्छा से अपनी दुकानें बंद की एक दुकानदार ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करने वालों की गिरफ्तारी और अपना विरोध प्रकट करने के लिए अपनी मर्जी से दुकान बंद की है। शुक्रवार जुमे का दिन होने के कारण प्रशासन भी किसी तरह की अनहोनी से निपटने के लिए पूरी तरह से मुस्तेद नजर आई। एसडीएम नीतीश कुमार, सीओ अंकित कुमार, प्रभारी निरीक्षक सुधीर कुमार आर्य दल बल के साथ दिनभर नगर में चक्रमण करते नजर आये। बताते चले गुरुवार को प्रशासन ने नगर और आसपास के क्षेत्रों के धर्म गुरुओं के साथ कोतवाली परिसर में बैठक कर शांति व्यवस्था बनाये रखे जाने की अपील की थी। जिससे मुस्लिम धर्मगुरुओं ने शांति शोहार्द बनाने में प्रशासन का सम्पूर्ण सहयोग और समर्थन की बात कही थी।

संक्षिप्त खबरें

पिंडरा ब्लॉक पर जनप्रतिनिधि व अधिकारी बने घराती, किये बारातियों का स्वागत



प्रखर पिंडरा वाराणसी। पिंडरा ब्लॉक मुख्यालय मंगरी पर शुक्रवार को पिंडरा व हरहुआ ब्लॉक के 119 जोड़ों की शादी पारंपरिक ढंग से मंत्रोच्चारण के बीच हुई। जिसके साक्षी बने विधायक, बीडीओ और परिजन। इस दौरान पूरा ब्लॉक परिसर मंगलगीतो से गुंजायमान रहा। सुबह 11 बजे चला कार्यक्रम दोपहर डेढ़ बजे तक चला। ब्लॉक परिसर में विधायक डॉ अवधेश सिंह ने नवविवाहित जोड़े को आशीर्वाद देते हुए उपहार भी दिया। बीडीओ/उपजिलाधिकारी विकास चंद ने बताया कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत पिंडरा ब्लॉक के 63 में से 62 व हरहुआ ब्लॉक से 57 जोड़े शादी के बंधन में बंधे और उन्हें 35 हजार नगद (खाते में) और 16 हजार रुपये के उपहार स्वरूप वर्तन, पंखा, मोबाइल, कुकर व अन्य सामग्री दी गई। इस दौरान बीडीओ हरहुआ धर्मद्वेदी, एडीओ पंचायत अशोक चौबे, एडीओ समाज कल्याण अनुराग मिश्रा व पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ एम जे निगम व सेक्रेटरी घराती बने मेहमानों को खाने से लेकर पानी की व्यवस्था करने व आवाभगत में जुटे रहे। इस दौरान कई ग्राम प्रधान भी जिम्मेदारी निभाते दिखे। सामूहिक विवाह के दौरान भीषण तपिश भरी गर्मी से नवविवाहित जोड़े परेशान दिखे। धूप से बचने के लिए पेड़ की छावों में खड़े रहे।

'पुनीत सागर' अभियान के अंतर्गत एनसीसी के कैडेटो ने दिया स्वच्छता का संदेश



प्रखर पराऊगंज जौनपुर। कुटीर पीजी कॉलेज चकके मे लेफिनेंट कर्नल मंजीत प्रभारी अधिकारी 98 यूपी. बटालियन जौनपुर के निर्देशानुसार भारत सरकार द्वारा चलाये जा रहे पुनीत सागर अभियान के तहत कैडेटो ने दिया स्वच्छता का संदेश जानकारी के अनुसार 98 यूपी. बटालियन एनसीसी के कैडेटो ने संतराम हड़िया बाबा एवं आसपास के जलाशयों मे कचड़े एवम प्लास्टिक को निकालकर लोगों को तालाबों व अन्य जलस्रोतों को स्वच्छ रखने का संदेश दिया। पुनीत सागर अभियान को सफल बनाने के लिए जलस्रोतों को गंद न करने की अपील की। इस अवसर पर लेफिनेंट डॉ चित्रसेन गुप्त ने कहा कि आजादी के 75 वां अमृत महोत्सव में पुनीत सागर मनाया जा रहा है। सभी तालाबों व बड़े जलस्रोतों की धाराएं कहीं न कहीं जाकर गंगा में ही मिलती हैं। ऐसे में हमें सभी तालाबों को स्वच्छ रखना ही होगा। जीवन के लिए प्राणवायु के बाद जल का ही स्थान आता है। तालाबों के साथ ही अन्य नदियों को स्वच्छ रखने की अपील की। इस अवसर पर सभी कैडेट्स उपस्थित रहे।

कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने महाराजा सुहेलदेव विजय दिवस पर निकाली पदयात्रा



प्रखर वाराणसी। महाराजा सुहेलदेव के विजय दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने आज आशापुर से पदयात्रा निकाला और यह पदयात्रा आशापुर से होते हुए सारनाथ स्थित महाराजा सुहेलदेव की प्रतिमा पर जाकर खत्म हुआ कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने महाराजा सुहेलदेव की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर विजय दिवस मनाया इस अवसर पर बीजेपी के तमाम पदाधिकारी चंद्रशेखर राजभर अजय भारद्वाज, पंचक्रोशी भाजपा युवा नेता डम्पी तिवारी सोनू राजभर विनोद राजभर शाशी राजभर प्रकाश राजभर संजय राजभर राम सिंह राजभर कल्लू सोनकर कार्यकर्ता मौजूद रहे।

ट्रेन से कट कर युवक की मौत

प्रखर शाहगंज (जौनपुर)। कोतवाली क्षेत्र के आजाद रेलवे क्रॉसिंग के निकट ट्रेन से कट कर एक युवक की मौत हो गयी। जानकारी के अनुसार ग्राम लालपुर जलालपुर जनपद जौनपुर निवासी 28 वर्षीय रायसाहब पुत्र रामधनी निषाद बुधवार को आयोध्या दर्शन करने बताकर घर से निकला था शुक्रवार की सुबह क्षेत्र के आजाद रेलवे क्रॉसिंग के निकट ट्रेन से कट कर अपनी जान दे दी किसी तरह जानकारी होने कोतवाली पहुंचे शवजनों ने मृतक की शिनाख्त की। फिलहाल आवश्यक लिखा पढ़ी के बाद कोतवाली पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम हेतु जिला अस्पताल भेज दिया। बताते हैं मृतक की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी जिसका एक डॉक्टर से इलाज भी चल रहा था।

प्रखर पूर्वांचल

RNIUPHIN/2016/68754

मुद्रक प्रकाशक 'पंकज सिंह' के लिए सम्पादक 'अरुण सिंह' द्वारा 'गायत्री पिटिंग प्रेस' सकोलाबाद गियर दुर्गा चौक, गाजीपुर पिन कोड: 233001 से छपावकर कनेरी गाजीपुर से प्रकाशित

सम्पादकीय कार्यालय: 9/10, टैगोर मार्केट, कचहरी, गाजीपुर पिन कोड: 233001 सम्पर्क सूत्र: 0548-2223833, +91-8858563779 +91-9450208067, +91-9452844802

सभी विवाद गाजीपुर न्यायालय के अधीन होंगे।

ताजा खबर पढ़ने के लिए लॉगइन करें हमारी वेबसाइट <https://prakharpurvanchal.com> Email ID: prakharpurvanchal@gmail.com

सांघ्य दैनिक प्रखर पूर्वांचल अखबार के सभी पद अवैतनिक हैं